

श्री गणेशाय नमः श्री धोली सत्यै नमः श्री हनुमते नमः
प्रातः साय दोहरायें

हे मातेश्वरी !

हमारे पास सब कुछ आपका ही दिया

हुआ है , हमारा कुछ नहीं ।

आपसे प्रार्थना है कि आप हमको सच्चे मार्ग पर चलाएँ

तथा सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम प्रत्येक

जीव धारी का सम्मान कर सकें और उनकी सेवा में

अपनी सारी शक्ति लगा दें , प्रत्येक प्राणी को

हम सहोदर समझें तथा उनकी उन्नति में सहायक

हो , हमारे मन में हमेशा पवित्र भावनाएँ पैदा

हों , जिससे हम संसार में पवित्र भावना

का प्रसार कर सकें , वासना तथा द्वेष से

हमें हमेशा दूर रखें ; हमारी हर प्रातः

शान्ति दायिनी एवं आनन्दमयी हो ,

हम आप से यही वर चाहते हैं ।

आपकी ज्योति चहुँ ओर फैल रही है, उसी अप्रतिम

ज्योति के सहारे हम जीवन-यापन कर रहे हैं ।

हे सिंह वाहिनी । हमको वह शक्ति प्रदान करो कि हम दुःख को

साथी समझें और दुःखी होते हुए भी अपने कर्तव्य पथ पर

दृढ रहे । किसी का अहित न करें । आपसे यही प्रार्थना है ।


हे जगत-जननी ! हमारी प्रार्थना ही है

कि हमेशा हर परिस्थिति में आपको स्मरण करते रहें और

आप हमें सच्चा मार्ग दिखाती रहे तथा हमारी

बुद्धि को सत-पथ की ओर प्रेरित करती रहें ।

॥ श्री श्री धोली सती दादी की जय ॥



श्री घोली सती दादीजी—फतेहपुर (राजस्थान)

श्री धोली सतीजी मन्दिर कमेटी

कलकत्ता के ट्रस्टीगण
वर्तमान पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्य

ट्रस्टी गण :

श्रीयुक्त नथमल सराफ
श्रीयुक्त मदनलाल सराफ
श्रीयुक्त सीताराम सराफ
श्रीयुक्त देवी प्रसाद लोधा
श्रीयुक्त राधेश्याम सराफ

पदाधिकारी गण

सभापति

श्री नथमल सराफ

श्री मदनलाल सराफ

उप-सभापति

श्री देवी प्रसाद लोधा

अवे० मन्त्री :

संयुक्त मन्त्री

श्री सत्यनारायण सराफ

श्री विश्वनाथ सराफ

कोषाध्यक्ष

श्री रामकृष्ण सराफ

कार्यकारिणी के सदस्य

श्री असनारायण सराफ

श्री इन्द्रचन्द सराफ

श्री बाल कृष्ण सराफ

श्री केदार नाथ सराफ

श्री राधेश्याम सराफ

श्री महादेवलाल सराफ

श्री गिरधारीलाल सराफ

श्री राम निवास सावलका

(नई दिल्ली)

श्री काशी प्रसाद सराफ

श्री हीरालाल सराफ

श्री धासीराम सराफ

श्री श्यामसुन्दर सराफ

श्री जनार्दन प्रसाद सराफ

श्री वनवारी लाल सराफ (बम्बई)

श्री वनवारी लाल सराफ

कोण्ट-सदस्य

श्री बाबुलाल सराफ

श्री रणछोड़ दास लडिया

श्री धोली सतीजी मन्दिर कमेटी

कलकत्ता

भूत-पूर्व पदाधिकारी

सभापति

श्री नथमल सराफ


उप-सभापति :

श्री सीताराम सराफ

श्री मदनलाल सराफ

सचिव :

श्री असनारायण सराफ



श्री धोली सतीजी मन्दिर कमेटी

फतेहपुर (राजस्थान)

शाखा के

वर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्य

सभापति

श्री इन्दरचन्द सराफ

मन्त्री

श्री धुरूपोत्तम लाल सराफ

कोषाध्यक्ष

श्री शंकर लाल सावलका

सदस्य

श्री भगवती प्रसाद सराफ

श्री लक्ष्मी नारायण सराफ

श्री बाबुलाल सराफ

श्री लालुराम सराफ

श्री विश्वनाथ सराफ

दो शब्द

आदरणीय महानुभावों !

बहुं हर्ष के साथ आज ममतामयी मां श्री श्री धोली सती दादी जी की अमीम अनुकम्पा से ये “स्मारिका” आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। फतेहपुर (राजस्थान) स्थित श्री दादी जी के वर्तमान मन्दिर के जीर्णोद्धार के प्रयास में ये एक उत्साहवर्धक कार्य-क्रम है। जिन महानुभावों ने हमें विज्ञापन के माध्यम से सहयोग देकर हमारा उत्साह बढ़ाया है एवं जिन वन्धुवों ने तन-मन से अपना अमूल्य समय व सहयोग, इस आयोजन को सफल बनाने में दिया है, मैं मन्दिर कमेटी की तरफ से उन सबका हार्दिक रूप से आभारी हूँ। कमेटी को ऐसी आशा नहीं थी कि इस पुण्य-कार्य में आप सबों का खुलकर भरपूर सहयोग मिलेगा। आप सबों की निष्ठा एवं पवित्र भावना को देखते हुए सुन्दर भविष्य की आशा को बल मिला है। ऐसी दृढ़ता और लगन को देखते हुए मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग देते हुए हमारे उत्साह को बढ़ायेंगे। मैं माई सत्यनारायण सराफ का विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके अथक प्रयास से ही हम आज ये स्मारिका आपके सामने प्रस्तुत कर सके हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने में निष्ठा होती है। दृढ़ आत्म विश्वास, संकल्प एवं उत्साह से इन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। जिसके फल स्वरूप आज हम अपने ध्येय में सफल हो पाये हैं।

इस आयोजन को सम्पूर्ण रूप से संवारने का श्रेय श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति के उत्साही नवयुवकों को है, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी-पूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए कमेटी समिति के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक रूप से आभारी है और मैं आज सगर्व कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कर्मठ एवं उत्साही कार्यकर्ता जिस संस्था में हो वहाँ सफलता न मिले ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। मां 'श्री' से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि इन सबको दीर्घायु प्रदान कर कमेटी पर उनकी आत्मीयता को इसी प्रकार सजीव बनाई रखे।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि प्रस्तुत स्मारिका तो सिर्फ एक उत्साहवर्धक मात्र है। आज मन्दिर कमेटी का प्रमुख उद्देश्य मन्दिर का जीर्णोद्धार करना है जिसके लिए आवश्यकता है एक बहुत बड़ी आर्थिक राशि की। कमेटी की ओर से मेरी सभी सहयोगी भाईयों से प्रार्थना है कि इस पुण्य कार्य को सम्पूर्ण करने में तन-मन-धन से अधिक से अधिक सहयोग करें। मुझे-पूरा विश्वास है कि हम इस पवित्र उद्देश्य में आप सबका हार्दिक सहयोग पाकर बहुत जल्द सफल होंगे।

मैं एक बार फिर अपने सभी विज्ञापनदाताओं, वन्धुवों एवं सहयोगियों को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया।

अपनी हार्दिक शुभकामनाओं सहित

अध्यक्ष

श्री धोली सती जी मन्दिर कमेटी

नथमल सगफ



श्री धोली सतीजी मन्दिर कमेटी की भावी योजनाएँ

- (१) फतेहपुर स्थित प्राचीन मन्दिर का जीर्णोद्धार
- (२) श्री धोलीसती दादी के पूर्ण इतिहास की खोज
- (३) मन्दिर के सामने प्रार्थना समागार एवं सत्संग
सभामवन का निर्माण
- (४) पुष्पोद्यान एवं क्रीड़ा-स्थल का निर्माण
- (५) होमियोपैथिक-दातव्य-औषधालय का निर्माण
- (६) पुस्तकालय
- (७) प्रौढ़ शिक्षा
- (८) महिला गृह कार्य शिक्षा

निवेदन :

कमेटी को बिंदल गोत्रीय भाइयों के केवल निम्नलिखित
बंक ही ज्ञात है। किसी भाई को इसके अलावा अन्य किसी भी
बिंदल गोत्रीय बंक का पता हो तो कमेटी को उस बंक से
अवगत कराने की कृपा करेंगे :—

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| (१) सराफ | (२) जैयपूरीया | (३) मुसही |
| (४) सावलका | (५) वागला | (६) लोधा |
| (७) लडिया | (८) लककड़ | (९) कागलीवाल |



फतेहपुर मन्दिर कं विश्राम भवन का शिलान्यास करते हुए श्री नथमजजी सराफ



Certificate of Registration of Societies

West Bengal Act XXVI of 1961

No. S/20065 of 1977-78

I hereby certify that Shree Dholi Satiji Mandir Committee has this day been registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. Given under my hand at Calcutta this Sixteenth day of June - One thousand nine hundred and seventy seven.

(B. K. Som)

Registrar of Firms, Societies &
Non-Trading Corporations,
West Bengal-

Seal



HARI EQUIPMENTS (P) LTD.

B-9, DEFENCE COLONY,

NEW DELHI-110024

Gram : 'HINDSALES'
Telex : 031-4195

Telephone : 62 14 21



**IMPORTER EXPORTER AND MANUFACTURERS
REPRESENTATIVE**



छिपकर किया गया अपराध जीवन-पर्यन्त हृदय में काटे की
तरह चुमता है। "अज्ञात"



उप राष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली
VICE - PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI
7th February 1978

I understand that the Annual Function
of Shree Dholi Satiji Mandir Committee will
be held at Calcutta on the 25th and 26th
February 1978 I send my best wishes for the
success of the function

(B. D. Jatti)



NORTH EASTERN ROADWAYS

LEADING TRANSPORT CONTRACTORS



Office :

10, TARACHAND DUTT STREET,
CALCUTTA-700073

Phone : 34-8349

Gram : FASTCARRY

Godown :

1, Pathuriaghata Street,
CALCUTTA-700006

Phone : 33-7539, 33-5329



ईश्वर और कुवेर की पूजा एक साथ नहीं की जा सकती ।

“दास्ताय”



Dr. P. C Chunder

Dy. No. 1862/EM/78

शिक्षा मन्त्री, भारत
EDUCATION MINISTER
INDIA

New Delhi

8th February, 1978.

MESSAGE

The Annual Function of Shree Dholi Satiji Mandir Committee next month in Calcutta will be a notable event. The Committee is engaged in doing benevolent work and its aim is the service of suffering humanity

I wish the Committee every success in its mission and I hope that it will register great strides in its work in the years ahead.

(P. C Chunder)

Shri Nathmall Saraf,
President,
Shree Dholi Satiji Mandir
Committee,
76, Cotton Street,
(Tullapatti)
Calcutta-7.

श्री धोली सती दादी

के अखण्ड-ज्योति

महोत्सव पर हमारी शुभकामना



पांगेलाल बुधरमल सराफ

फतेहपुर-शेखावाटी

(राजस्थान)

मूर्ख स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, किन्तु वास्तविक बुद्धिमान
स्वयं को मूर्ख ही मानते हैं।

“शेक्सपियर”

श्री गणेश वन्दना



दोहा :—

दुन्दाला दुःख भङ्गना, सदा उरुजाजा भेस ।
सारा पहली सुमरियो, — गौरी पुत्र गणेश ॥

गणपत वलकारी जी फतह म्हारी आज करो,
ऋद्धि-सिद्धि के दाताजी फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥

कुन तो तुम्हारो देवा, पिता रे कुहावे ।

कुन यारी माताजी, फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥

पिता तो हमारो देवा, है शिव शंकर,

माता पारवती ! फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥

गुड़ के मोदक भोग लगत हैं,

फुलझारी मालाजी, फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥

रणत भवन से आवो जी विनायक,

ऋद्धि सिद्धि सावोजी, फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥

सब सेवक भरदास करत हैं,

ये संकट काटो जी, फतह म्हारी आज करो ॥ टेर ॥



मां
"श्री"
के चरणों में

ॐ

RANGOPAL SARAF

1ST FLOOR, SARAF BHAWAN

34, PUSA ROAD,

NEW DELHI-110005

(INDIA)

Phone : 561343



विश्वास करो :—तुम मां 'श्री' के प्यारे हो, तुम में इसका
विश्वास नहीं, वही कमी है। इस विश्वास के द्वारा मां का
प्यार एवं आशीर्ष पाकर पदसुखी हो जाओगे।

स्तुति

घोये घोये आंगना में, आवो म्हारा दादी जी।
थारा बालकिया बुलावे वेगा आवो म्हारा दादी जी ॥

फूलां से थारी झांकी सजी है, कण-कण में थारी छवि वसी है।
चढ़ सिंह पीठ पधारो, म्हारा दादीजी ॥ टेर ॥

तेज तुम्हारो मैया चमचम चमके, मुख मंडल की आभा दमके।
सत्य की ज्योति जगावो म्हारा दादी जी ॥ टेर ॥

फतेहपुर में जायो मेलो भारी, दूर-दूर से आवे नर नारी।
पेड़ां को भोग लगावो म्हारा दादी जी ॥ टेर ॥

संकट में तू दौड़ी दौड़ी आवे, सक्तां को तू मान बढ़ावे।
थारा बालकां को मान बढ़ाओ म्हारा दादी जी ॥ टेर ॥

पितरदेव की स्तुति

जय जय पितरजी महाराज, में शरण पड्यो हूँ थारी ॥

आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही खेवन हारे।
में मूरख हूँ कछु नहि जानू, आप ही हो रखवारे ॥ १ ॥ जय०

आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी।


हम सब जन हैं शरण आपकी, है ये थारी फुलवारी ॥ २ ॥ जय०

देश और परदेश सब जगह, आप ही करो सहाई।

काम पढ़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई ॥ ३ ॥ जय०

में भी आयो शरण आपकी, अपने सहित परिवार।

रक्षा करो आप ही सब की, रट्ट में वारम्बार ॥ ४ ॥ जय०



मातेश्वरी

के

चरणों

में

Saraf Paper Mills Ltd.

34, PUSA ROAD,

NEW DELHI

Phone : 56 43 59
56 28 33

चाद रखो — तुम्हारी निःस्वार्थ एवं त्यागमयी देवा से मातेश्वरी
वही प्रसन्न होगी और उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन को
आनन्दमय बना देगी।

स्तुति

जगदम्बे भवानी मैया । तेरा, त्रिभुवन में छाया राज है ।

सोहे वेप कसूमल नीको, तेरे रत्नों का सिर पे ताज है ॥

जब-जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब-तब आय सहाय करे ।

अधम उद्धारण तारण मैया, युग-युग रूप अनेक धरे ॥

सिद्ध करती तू भक्तों के काज है, नाम तेरो गरीब निवाज है ॥१॥

जल पर थल और थल पर सृष्टि, अद्भुत थारी माया है ।

सुर नर मुनिजन ध्यान धरे नित, पार नहीं कोई पाया है ॥

थारे हाथों में सेवक की लाज है,

लियो शरणो तिहारो मैया आज है ॥२॥

जरा सामने तो आवो मैया, छुप-र छलने में क्या राज है ।

ये छुप ना सकोगी मेरी मैया, मेरी आत्मा की ये आवाज है ॥

मैं तुमको बुलाऊँ, तुम नहीं आवो ऐसा कभी ना हो सकता ।

बालक अपनी मैया से बिछुड़ कर सुख से कभी ना सो सकता ॥

मेरी नैया पड़ी मझधार है, अब तू ही तो खेवनहार है ।

आजा रो-रो पुकारे मेरी आत्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज है ॥

जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है ॥सोहे०॥

स्तुति

माई ए थारी ज्योति सवाई ए,

दादी ए थारी ज्योति सवाई ए,

कोई बैठी मन्दिर बीच करो,

भक्तों की सुनाई ए ॥ माई ए ॥

दूर-दूर से यात्री आवे, थास करे पुकार,

चिन्ता चरो हरो पीड़ा ने, दोन हाथ पसार,

खड़या सब लोग लुगाई ए ॥ कोई बैठी ॥

गाँव फतेहपुर माँ सती दादी, लग्यो तेरो दरवार

मैं भी तेरो दास भवानी, करूँ तेरी मनुहार,

करो मेरे मन की भाही ए ॥ कोई बैठी ॥

भीड़ पड़ी भक्तों रे ऊपर, जद तू कीनी स्हर,

मेरी बरियां आज लगाई, कईयां इतनी देर,

मेरे तो डव नाय ममाई ए ॥ कोई बैठी ॥



Gram : 'BATRABROS'

Phones : Office : 51 55 15
 : 51 95 15
 Resi. : 56 41 42

Bhagwan Das Chaman Lal

Dealers in :

TIN PLATES, TIN-MILL BLACK PLATES & C. R. C. A SHEETS
AND SCRAPS

1049, PAN MANDI
SADAR BAZAR,
DELHI-110006


●
यदि कोई तुम्हारे पास किमी की बुराई करने आए, तो तुम
वसे सुनना ही नहीं। सुनना तक महा पाप है। "विवेकानन्द"

स्तुति

दादी जी या विनती म्हारी, सुणियो ध्यान लगा कर जी ।
'श्री' चरणां री सेवा करस्या, रग्वियो म्हाने चाकर जी ।
पूजा-विधि ना जानां कुछ भी, सांची बात बतावां हां ।
रोली, मोली, भीफल ले मां, पूजन थाल राजावां हा ।
पुष्पां सँ शृङ्गार करां हां, गुण धारा ही गावा हां ।
तन-मन शीतल होवे थारे, चरणां रो जल पाकर जी । टेर ।
वेद-पुराण बखाने है मां, सतियां को सत् सारी है ।
पम धारी तो बात निराली, थारी महिमा न्यारी है ।
चमके थारो तेज जगत सँ, सारी दुनिया ध्यारी है ।
जनम-जनम का पाप कटे है, थारी शरण में आकर जी । टेर ।
आया दर पर आश लगाकर, मां का दर्शन पावांगा ।
भक्ति भाव से, भजन सुणाकर, दादी जी न रिझावांगा ।
दयासयी दातार भवानी, खाली हाथ न जावांगा ।
माता सुख सँ रह न सकै है, टावरिया न भुलाकर जी । टेर ।

स्तुति

फतेहपुर वाली धोली सती मां थाने अक्कां से है प्यार
ओ म्हाने चोखो लागे-दादी थारो आज सिणगार
माघे पे थारै टीको सोड़े नैना कागल सार
हाथा में थारे मेहन्दो राखे रंग बण्यो है अपार
ओ, दादी चोखो लागे म्हाने थारी चूनड़ी को जाल
रोली मोली चावल लेकर आवां थारे द्वार
पेड़ा नारियल भोग चढावां और पुष्पा को हार
ओ दादी वड़े प्रेम से भक्त करे है थारी मनवार
ग्रह्या विष्णु भेद न पायो महिमा थारी अपार
जो कोई साधे मन से ध्यावे करदयो वैड़ा पार
ओ दादी मैं भी आयो दरसन खातिर आज थारे द्वार
मादी मावस ते तो ए मैया मेलो जमे अपार
दूर दूर से यात्री आवे दादी जी के द्वार
ओ दादी सबकी पूर्ण करो थे ही लखदातार



Registered Dealers of:

TATA · IISCO · HSL
SHEETS · STRUCTURALS · BARS · ROUNDS
PIG IRON · ETC.

49, NALINI SETT ROAD,
CALCUTTA-700 007

PHONES:

OFFICE: 33-6264, 33-8876, 34-0351, 34-9237
RESI. 72-2044, 72-2440

स्तुति

एक वर म्हारे भी आंगणिये में, आवो म्हारा दादीजी,
रहे थारो गुणगान करां ।

थारै भगता ने दग्ग दिवाओ, म्हारा दादीजी,

म्हे थारो गुणगान करां ।

मोला भाला भगत हां थारा, थे हो दादीजी म्हारा रखवाग,

भोला भगता न मन बिसरावो, म्हारा दादीजी ॥ म्हे थारो ॥

तीन लोक में थारो राज है, थारै हाथ मैया म्हारी लाज है,

थारै भगता की लाज बचाओ, म्हारा दादीजी ॥ म्हे थारो ॥

महिमा थारो बडो है भारी, पूजै थाने या दुनिया सारी,

थे भगता को मान बढावो, म्हारा दादीजी ॥ म्हे थारो ॥

धोली सती दादी नाम है थारो, भगता का सब काज-सागो,

म्हारी नैव्या न भी पार लगावो, म्हारा दादीजी ॥ म्हे थारो ॥

'ताराचन्द' भी भगत है थारो, एक वर म्हारे घरा भी पधारो,

थे म्हाने ही क्यु इतना तरसावो, म्हारा दादीजी ॥ म्हे थारो ॥

भजन

सर्व सुहागण मिल मन्दरिये में आई

दादीजी के हाथ रचाई जी या मेहदी

सोने की थारी में भंगाल ल्याई

खेचन थाल धुलाई जी या मेहदी

चान्दी की चौकी पर चौक पुरावो

दादीजी बैठे मन्दाई जी या मेहदी

जाल खुरा मेहदी हाथ रची है

दादीजी ने बहुत ही प्यारी जी या मेहदी

चरण घोय चरणा में लागी

आशिष लेखु आई जी या मेहदी

धन धन लक्ष्मी भोत (बहुत) घणा है

म्हारे टावरिया की बेल बटाई जी दादीजी

दया दृष्टि कर खो दादी जी

थारा टावरिया मिल सब गाई जी या मेहदी

श्री श्री धोली सतीजी

के प्रति

पुरुषोत्तम दास डालमिया

की

हादिक शुभकामना :

卐

BANWARI LAL PURSOTAM DASS

29A, SIR HARIRAM GOENKA STREET,

CALCUTTA-700007

Phone : 35-2967



याद रखो :—कठिनाइयों को निमन्त्रण देना सीखें, क्योंकि ये
वरदान है, प्रेरक है एवं जीवन में सच्चा आनन्द देनेवाली है।

“शेक्सपियर”

स्तुति

इस योग हम कहीं हैं, दादी तुम्हें मनाये।
फिर भी रिक्ता रहे हैं, शायद तू मान जाये ॥

जबसे जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा।

छल और कपट ने डाला इस भोले मन पर डेरा।

सद् बुद्धि को अहम् ने हरदम रखा दवाये ॥ इस योग ॥

निश्चय ही हम पतित है, लोभी हैं स्वार्थी हैं।

तेरा ध्यान जब लगाये, माया पुकारती है।

सुख भोगने की इच्छा, कभी तृप्त हो न पाये ॥ इस योग ॥

जग में जहाँ भी देखा वस एक ही चलन है।

एक दूसरे के सुख पे खुद को बड़ी जलन है।

कर्मा का लेखा-जोखा, कोई समझ न पाये ॥ इस योग ॥

जब कुछ न कर सके तो, तेरी शरण में आये।

अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजायें।

वस दरश तू दिखादे, कुछ और हम न चाहें ॥ इस योग ॥

स्तुति

तेरे नाम का पुजारी आया तेरे दर का भिखारी आया

मैया देदे दरसन काटो सारे मेरे गम...तेरे नाम का

बिन देखे तुझे नौद आती नहीं मां नहीं

घोक खाये बिना याद जाती नहीं मां नहीं

होठों पे हैं तेरा नाम, रहता सुबह और शाम

मेरे सिर पर हाथ फिराज्या.....मैया देदे दरसन

दर छोड़ तेरा मां जाऊँ कहीं मां कहीं

दुख दरद मेरा मां सुणाऊँ कहीं मां कहीं

मेरा तू ही तो आधार तेरी महिमा अपार


होके सिंह पे सवार मां आज्या.....मैया देदे दरसन

तेरे चरणों में कैसे लिपट जाऊँ मां मेरी मां

तुम कहां हो छुपी किस दर जाऊँ मां मेरी मां

क्यों है इतनी खफा मुझे इतना बता

मेरे नैनो में आ के समाजा.....मैया देदे दरसन



With Best
Compliments
From



Phone : 63 01 75
63 37 90

Iron Master India (Private) Ltd.

M-17, KAILASH COLONY,
NEW DELHI-110048

Factory :

Plot No. 35, Sector 6,

FARIDABAD (HARIYANA)

Phone : 88358



बालाक और धृते व्यक्ति, सीधे और सरल व्यक्ति के सामने
बिल्कुल मौबक्का होकर रह जाता है। "कोल्टन"

स्तुति

आइरे ! चेतना एक जासी एकली,
आतोड़ा जातोड़ा थारी दुनियां दारी देखली ।

मिनख जमारो पायो मिनखा मिनख पणो कद पावोला ।
पिंजडे मानो पंछी बोलयो, मोती कणा चुगाओला ।
सपने में रंगीन सिनेमा देखली... ॥ १ ॥ आइरे

कुण थारो साथी कुण थारो संगी कुण थारे सागे जावेलो ।
सुण रे लोभी जिवड़ा तू थारी, करणी रो फल पावेलो ।
छल छिद्रास्यँ न्याव घरम की छेकली... ॥ २ ॥ आइरे
पूरव जनम पुण्याई जागी, मिनख जमारो पायो जी ।
दादीजी रो जाप करे कुण मुख, माया में विलमायो जी ।
सात पिढ्यांरी रोटी सागे सेकली... ॥ ३ ॥ आइरे

भादव मोच्छव मंगलकारी, दादी रो गुण गावो जी ।
गुण री पूजा करो जगत में, सांची दादी कहावे जी ।
सेवक थारी महिमा दादी देखली... ॥ ४ ॥ आइरे

स्तुति

तर्ज—क्या हुआ तेरा वादा फिल्म—हम किसी से कम नहीं

सुनले माँ बिनती मेरी, अब ना कर माँ तू देरी ।
दर्शन तेरा पाऊँ जो माँ, जीवन के दुःखों से मुक्ति

पा जाऊँगा ॥ टेर ॥

मैंने सुना है भक्तों की तू, करती माँ रखवारी है ।

जव-२ पढ़ी है विपदा भागी, पल में माँ तू टारी है ।

जग में दुःखों की गिनती नहीं, तुझको क्या-२ मैं बतलाऊँ ॥ टेर ॥

धोलीसती माँ, फतेहपुरवाली, लखदातार कहाती हो,


दानी होकर चुप क्यों बँठी, क्यों माँ तू तरसाती हो ।

धन दौलत ना मांगे तुझसे, वस चरणों की छाया में बीते हर पल । टेर

तुम हो दाता मैं हूँ भिखारी, हाथ पसारे आया माँ,

भरदे झोली खाली मेरी, दर्शन मुझको दे दो माँ ।

जल्दी से आ जा माँ देर क्यों करे, जयबोलो भक्तघृन्द टेर करे । टेर



**With Best
Compliments
From**



G. R. AGARWAL

IMPORTERS & MANUFACTURERS REPRESENTATIVES

Phone : 32-1424

Cable : SURESBROS

Telex : CA-021 2728

AB-SIBCO



P-3, NEW C. I T. ROAD,

(4th Floor)

CALCUTTA-700073

(INDIA)

इस संसार में हो या धर्म के संसार में, यह सत्य है कि भय ही
पतन और पाप का निश्चित कारण है।

“विवेकानन्द”

स्तुति

अम्बे ! तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्परवाली ।

तेरे ही गुण गाये भारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ।

तेरे जगत के भक्त जनन पर, भीड़ पड़ी है भारी ।
दानव दल पर दूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी ।
सौ-सौ सिंहों सी तू बलशाली, हे दस भुजाओं वाली,
दुष्टों को तू ही तो संहारती—ओ मैया...हम सब० ।

मां बेटे का है इस जग में, बड़ा ही निर्मल नाता ।
पूत कपूत सुने है पर ना, माता सुनी कुमाता ।
सब पे अमृत बरसानेवाली, सबको हर्षाने वाली,
नैया भँवर से उवारती—ओ मैया...हम सब० ।

नहीं मागते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना ।
हम तो मांगि मां तेरे मन में, एक छोटा सा कोना ।
सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा-मिटाने वाली,
सतियों के संत को संवारती—ओ मैया...हम सब० ।

स्तुति

मैया थारा टाबरिया थाने याद करे ।

थारै स ही मैया करियाद करे.....

मोला ढाला जाणकर, मत दीज्यो विसराय ।

टाबर थारा जाणकर लीज्यो हिवहै लगाय ॥

भगतों सँ हे मैया कैया रूस्या सरे । मैया... ॥ १ ॥

ना म्हे जाणां आरती करणी, ना पूजा की रीत ।

थे म्हारा और म्हे हां थारा, मां बेटां की प्रीत ॥

कैयां मां थे रहोगा बेटा सँ परे । मैया..... ॥ २ ॥

विनती म्हारी सुण लीज्यो ओ म्हारी मैया ।

भव सागर से पार लगा दीज्यो म्हारी नैया ॥

“ताराचन्द”(टाबरिया) भी मैया थारो ध्यान धरे । मैया... ॥ ३ ॥



With the
Best Compliments
of

JOTINDRA STEEL & TUBES LIMITED

'MUNSHI NIKETAN'

1/10-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

Phones : 271936-37 & 277030

WORKS : 14/3, MATHURA ROAD, FARIDABAD,

Phones : 82-5721-22-23

CALCUTTA OFFICE :

16, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

Phone : 22-8535

BOMBAY OFFICE :

303, ABHAY STEEL HOUSE

59E BARODA STREET BOMBAY

Phone : 325577

श्रम करके तुम पृथ्वी, माता का चिरवन स्वप्न पूरा करते हो,
जिसकी प्रति का आर उस स्वप्न के जन्म लेते हो, तुम्हें सोपा
गया था।

बि० जि०

स्तुति

फतेहपुर को मेलो यो तो बड़ो अलवेलो

दादीजी रा दरशन कराय ल्याऊँ

थानै भादवै में फतेहपुर घुमाय ल्याऊँ ॥ टेर ॥

भादवै की मांवास माँ को मेलो लागै भारी

दरशन करणै दादीजी रा आवै दुनिया सारी

थानै भी दरशन कराय ल्याऊँ.....भादवै में.....

धोली सती दादी म्हारी बड़ी ही दातार है

भगता क खातिर मैया रहै तैयार है

थानै भी मैया सँ मिताय ल्याऊँ.....भादवै में....

सारो जग देखयो पण फतेहपुर कोनी देख्यो

फतेहपुर कोनी देख्यो तो थे कुछ भी कोनी देख्यो

मनड़े री उदासी मिटाय ल्याऊँ.....भादवै में.....

सालासर घुमास्यां, थानै मालासर घुमास्यां

रुणीचो दिखास्यां थानै जेपुरियो दिखास्यां

खाटुडो दिखास्यां थानै, मुँक्षनू दिखास्यां

जीणमाता, शाकम्बरी, थानै गलता में नुहास्यां

जौघपुर, कोटड़ी घुमास्यां, वीकानेरजी

मेहन्दीपुर मेड़तो घुमास्यां, अजमेरजी

काकड़िया मतीरा खुवाय ल्याऊँ भादवै में.....

जीता जी काम काज सँ फुरसत कोन्या आवै

उड़ जावे हँसो नर पीछे पछतावै

थोड़ो सो पुण्य कमाय ल्याऊँ.....भादवै में.....

टावरियां न ले ल्यो सारा घरकां न ले ल्यो

आड़ोसी पड़ोसी सारा साथीड़ा न ले ल्यो

क्यारुँ मेर की रौनक दिखाय ल्याऊँ.....भादवै में.....

आधलियां न आख्यां देसी पांगलियां न पग जी

कोटियां न निर्मल काया निर्धनिया न घन जी

बाँझडियां रा पालणां भुलाय ल्याऊँ.....भादवै में...

साचे मन से ध्यावै वारा दुखड़ा मिट जावै


खाली कोनी जावै दर से मांग्या वर पावै

थारा भी दुखड़ा मिटाय ल्याऊँ.....भादवै में.....

“काका मण्डल”करे विनती बात म्हारी राखियो

ज्यादा अगर बोल गयो तो बुरो मत मानियो

कहो तो मैं टिकट कटाय ल्याऊँ.....भादवै में.....



With Best
Compliments
To you



Telex : ALERT CA-2448.
Gram : "ALERTNESS"

Phones : 44-0145
44-0146

Bengal Behar Construction Co. Ltd.
ENGINEERS & CONSTRUCTORS



Regd & Central Office :—

233/4, ACHARYA JAGADISH BOSE ROAD,
CALCUTTA-700 020



कमजोरी को मैं दुरा नहीं समझता, मूर्खता को मैं माफ कर
सकता हूँ ; मगर वेईमानी मुझे नीर-सी चुपती है ।

"जवाहरलाल नेहरू"

स्तुति



सच्चे मन से करो यात्रा, मकों फतेहपुर धाम की।
महिमा अपरम्पार है वन्दे धोलीसती के नाम की।

धोलीसती का दर्शन करके जनम धन्य हो जायेगा।

एक चित्त हो लगन लगा कर गीत सती के गायेगा।

बिना भजन के मानव काया बोलो है किस काम की ॥महिमा॥

मन्दिर माँ का अजब सजाया, अजब सती की माया है।

कलियुग में अवतार लिया और सत का तेज दिखाया है।

माँ के जयकारों से गूजे गली-गली हर गाँव की ॥महिमा॥

पढ़े रहे माँ के चरणों में ऐसी ही अभिलाषा है।

पूरी होगी सभी कामना ये भी मन में आशा है।

व्यर्थ बिना सत्संग के देही हाड़-मांस और चाम की ॥महिमा॥

हाथों में त्रिशूल बिराजे शंख चक्र भी संग में है।

पति भक्ति की अनुकूल ज्योति तेरे अंग-अंग में है।

साता-पिता का मान बढ़ाया रखी लाज सती शान की ॥महिमा॥

ये बालक पुकारे मैया मकों को दर्शन दे दो।

पढ़े हुए हैं मोह जाल में अपने चरणों में लजो।

दुःख दारिद्र मिटे गर दे दो घूल तिहारे पाँव की ॥महिमा॥



With the
Best
Compliments
of

Gram : 'TANTUBAYA'
Telex : 'MM (021) 3520'

Phone : Office : 33-7976, 33-1592
Resl. : 55-8281, 55-0849

M. M. Trading Corporation

178, Mahatma Gandhi Road,

CALCUTTA-700007

हम आते हैं और रोते हैं, यही जीवन है; हम जंमाई लेते हैं
वक्त वसते हैं; यही मृत्यु है।

'असोन द चासिल'

स्तुति



कोई पंडित है विज्ञानी, कोई सेठ धुरन्दर दानी,
कोई कर्म वीर सुर ज्ञानी मारा भारती,
हे मैया मिलकर वतारी थारी आरती ।

झालर, शंख, नगाड़ा, घंटी, टन-टन टाली बाजे,
तोबत को घरांट सुनय्यु, घटा गगन म गाजे,
हित-मिल नाया मङ्गल गावे, टावर जय जयकार सुनावे,
गावे मन्त मुनी परसारथी । हे मैया ॥ १ ॥

अगर, कपूर, घीरत की बाती, सजा आरती थारी,
छुपन भोग छतीस्य व्यञ्जन, गंगाजल की झारी,
न्याया मावलिया मोट्यार, बुड्हा बडा कर मन वार
सुनले सत करथ की सारथी । हे मैया ॥ २ ॥

गाव कतेहपुर घाम सती को, मन्दिर अजव निगलो,
मत की ज्योत जगी है फेल्यो अश्वर तक वजियालो,
जो भी द्वार थारे आता मां से अन चाया फल पाता,
माना तुझसो न कोई परसारथी । हे मैया ॥ ३ ॥

निर्धन माग अन धन थास, रोगी निर्मल काया,
भक्ति अटल विहारी माग, करदयो छतर छाया,
माग पुत निपुती नार, कन्या मन चायो भरतार,
माग बल दिद्या विद्यार्थी । हे मैया ॥ ४ ॥

“मातेश्वरी” के

महोत्सव पर

बनवारी लाल डालमिया

की

हादिक शुभकामना :

卐

SHANKAR TUBES LTD.

4, Narkeldanga C. I. T. Main Road.

CALCUTTA-54

Phone : 35-0952
35-9124



याद रखो :—हमारा और भगवान का पारस्परिक सम्बन्ध है—
अपने को उसके हाथों सौंप देने में हमें अथाह सिद्धि की परि-
पूति हो सकती है।

‘हेल’

शुक्ति



मैं झोली पसारे माँ, तेरे द्वार पे आया हूँ ।
बड़ी दूर ले आया हूँ, नहीं संग छुड़ जाया हूँ ॥ देर ॥

तुम दूर करो विपदा, हे अकन रखवाजी ।
दो दरशन तुम अपना, मत देर करो माई ॥
नगे पावों जल कंग, तुम्हें दुखड़ा सुनाया हूँ ।.....

अप देर चुनो भेरी, मुझे ओढ़ न तरसाओ ।
पावों में मदे कांटे, छुड़ तो माँ तरस खाओ ॥
पड़ गये छोटे बाले, नहीं किसी को बताया हूँ ॥.....

सब नाते तोड़ के माँ, घर छोड़ के आया हूँ ।
आँलों में मदे आँसू, कटे कपड़ों में आया हूँ ॥
अपना जो मुझे मिया, दर-दर ठुकराया हूँ ॥.....

जब दो झोली खाली, सिर पर मेरे हाथ रखो ।
मत फेरो निगाहें माँ, हज़ बार इधर निरखो ॥
जब महर करो मिया, बहुत दूर से आया हूँ ॥.....

मैं कैसे दिनाऊँ तुम्हें, नहीं मुझ में कोई शक्ति ।
नहीं बल बुद्धि शुद्धमें, ना सेवा की शक्ति ॥
नतमस्तक होकर माँ, तुम्हें शीश कुकाया हूँ ॥.....



Phone Office : { 51 13 76
51 79 49
51 75 29
Resl : { 22 32 34

Uttam Chand Ramesh Kumar

1130, BASTAN MARKET,
SADAR BAZAR
DELHI-6

**Pioneer in Decoiling of C. R. H. R. & Aluminium Coil
UPTO 12 mm THICKNESS**

SISTER CONCERNS —

- (1) GOYAL TIN & GEN. INDUSTRIES, DELHI.
- (2) M. R. COTTEGE INDUSTRIES, DELHI.
- (3) HINDUSTAN STEEL PROCESSORS, GUTTZIADAL.
- (4) SHREE GANGA GALVANISING CO (P) LTD., KANPUR
- (5) PROGRESSIVE STEEL PROCESSORS, BOMBAY.

सकज्जन ऐसा कीकिये, ढाल सगीषा होय,
दुःख में तो आगे रहे, सुख में पीछे होय।

श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति

कलकत्ता

के

वर्तमान पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य

सभापति :

श्री केदारनाथ सराफ

उप-सभापति :

श्री फूलचन्द सराफ

प्रधान सचिव

उप-सचिव

श्री रघुनाथ प्रसाद सराफ

श्री तोलाराम सराफ

कोषाध्यक्ष :

श्री काशी प्रसाद सराफ

संयुक्त प्रचार सचिव :

संयुक्त शृंगार सचिव :

श्री गोपी किसन सराफ

श्री प्रदीप कुमार सराफ

श्री किसन लाल सराफ

श्री रामस्वरूप सराफ

कार्यकारिणी सदस्य

श्री सोहनलाल सराफ

श्री मामराज सराफ

श्री सत्यनारायण सराफ

श्री इन्द्रचन्द सराफ

श्री सजन कुमार सराफ

श्री श्याम लाल सराफ


श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति के तत्वाधान में

मादवा अमावस सम्बत् २०३४ के उपरांत सम्पन्न हुए
कीर्तनों की मूची

अढ़ाई घंटे का आयोजन

क्रमांक दिनांक नाम व पता

- १ १३-६-७७ श्री जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- २ २४-६-७७ ,, वासुदेव सराफ, १६, मुक्ताराम बावू स्ट्रीट
- ३ १-१०-७७ ,, कालीचरण सराफ, ८, अमरतला स्ट्रीट
- ४ ८-१०-७७ ,, शंकरलाल सराफ, ५, जटुलाल मल्लिक रोड
- ५ १२-१०-७७ ,, जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- ६ २२-१०-७७ ,, शिवरमल सराफ, १०, तागाचंद दत्त स्ट्रीट
- ७ २६-१०-७७ ,, गोपी कृष्ण सराफ, १० ताराचंद दत्त स्ट्रीट
- ८ ५-११-७७ ,, शिवराम सराफ, ५३, विवेकानंद रोड
- ९ ११-११-७७ ,, जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- १० १२-११-७७ ,, बनारसीलाल सराफ, २, माधव किस्टो सेठ लेन
- ११ १६-११-७७ ,, सत्यनारायण सराफ, १, पथरियाघाट स्ट्रीट
- १२ २६-११-७७ ,, तोलाराम सराफ, ६, जगबन्धु बोरोल लेन
- १३ १०-१२-७७ ,, जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- १४ १७-१२-७७ ,, देवकीनन्दन सराफ, १६, मुक्ताराम बावू स्ट्रीट
- १५ ७-१-७८ ,, मागीरथमल सराफ, २८/२ अजमेर मेंसन
- १६ ६-१-७८ ,, जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- १७ १४-१-७८ ,, रतनलाल सराफ, १०, कालीकृष्णा टेंगोर
स्ट्रीट
- १८ २१-१-७८ ,, काशीप्रभाद सराफ, ६ बी, दत्त पारा लेन
- १९ ४-२-७८ ,, महावीर प्रसाद सराफ, ६, विवेकानन्द रोड
- २० ७-२-७८ ,, जयपुरिया मंदिर, ग्रीस पार्क
- २१ ११-२-७८ ,, फूलचंद सराफ, १४/२ सर हरीराम
गोयनका स्ट्रीट
- २२ १८-२-७८ ,, बाबूलाल सराफ, २३, राजेन्द्र मल्लिक स्ट्रीट



प्रचार समिति द्वारा आयोजित कीर्तन में आलौकिक श्रृंगार का दृश्य

सारी रात का आयोजन

- क्रमांक दिनांक नाम व पता
- १ १५-१०-७७ श्री पुरुषोत्तमलाल सराफ, २, जोड़ा बगान
(काठगोला)
- २ ३-१२-७७ ,, सोहनलाल सराफ, ११२, चितरंजन एवेन्यू
- ३ २४-१२-७७ ,, महेन्द्रकुमार सराफ, २७२ जी० टी० रोड
रामघाट, उत्तरपोडा
- ४ ३१-१२ ७७ ,, जनार्दन प्रसाद सराफ, ६३, कालेज स्ट्रीट
- ५ २८-१-७८ ,, सत्यनारायण सराफ, २२/१ आरमेनियन स्ट्रीट

श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति

७६/४६३, कुली वाजार

कानपुर

के

वर्तमान पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य

ॐ

अध्यक्ष :

श्री श्याम सुन्दर सराफ

उपाध्यक्ष :

श्री मुरारी लाल सराफ

प्रधान सचिव :

उप-सचिव

श्री रतनलाल सराफ

श्री जुगलकिशोर सराफ

कोषाध्यक्ष .

श्री सुरेश कुमार सराफ

कार्यकारिणी सदस्य

श्री श्रीनारायण सराफ

श्री ओम प्रकाश सराफ

श्री गोपीराम सराफ

श्री सत्यनारायण सराफ

स्मारिका प्रकाशन सयोजक

श्री गोपाल सराफ

श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति के

“प्रमुख उद्देश्य”

- (१) श्री श्री धोली सती दादीजी का अधिक से अधिक प्रचार करना ।
- (२) समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार को भक्त जनो के निवास स्थान पर श्री दादी जी के भजन-कीर्तन (२॥ घन्टा या सारी रात्री) एवं आलौकिक शृंगार का आयोजन करना ।
- (३) समय-समय पर श्री दादीजी के गुणगान की भजन माला एवं चित्र आदि प्रकाशित कर वितरित करना ।
- (४) भादव मेले के शुभ अवसर पर फतेहपुर मन्दिर में यात्रियों की सुख सुविधा एवं विश्राम हेतु सेवा-कार्य करना ।
- (५) अन्य धार्मिक संस्थाओं के निमंत्रण पर उनके आयोजनों में योग-दान देना ।
- (६) परस्पर वन्धुत्व, मैत्रीत्व को बढ़ाकर आपस में समभाव रखना ।
- (७) प्रचार समिति द्वारा प्रत्येक अमावस्या को श्री श्री धोली सती दादीजी के मन्दिर, ७/१ प्यारी मोहन पाल लेन, “जयपुरिया मन्दिर” (प्रीस पार्क) में ही रात्री ७॥ से १० वजे तक किया जाता है ।


विशेष दृष्टव्य : दादी-भक्तों से अनुरोध है कि वे अपनी इच्छा-नुसार (२॥ घन्टे या सारी रात्री का) भजन-कीर्तन अपने निवास स्थान पर करवाने हेतु कम से कम १० दिन पूर्व निम्न लिखित फोन नम्बर पर सम्पर्क करें ।

३४-०६६७, २२-२२४६,

३४-८३४६, ३३-८८२३

with
the
compliments
of

AGARWAL TEA COMPANY



TEA AUCTION BUYERS
&
COMMISSION AGENT

Head-Office :

MARWARI PATTY
JORHAT-2
(ASSAM)

Phone : 122
861



Branch Office :

HEMBARUAH ROAD,
FANCY BAZAR
GAUHATI-9
(ASSAM)

Phone : 27256

कानून का फदा बहुत लम्बा होता है। उससे बचना सरल काम
नहीं। "शरण"

With the
Compliments
of

Gram : MOTHERLAND

Phone : Office : 66-3768
Resi : 32 2246

Agarwal Industrial Products



Manufacturers, Suppliers & Dealers in :

FOUNDRY MINERALS, REFRACTORIES & FERRO-ALLOYS



4, STATION ROAD,
LILLOAH
(HOWRAH)




जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में मुँह साफ़ दीखता है उसी प्रकार
शुद्ध चित्त में ज्ञान प्रकट हो जाता है। "शंकराचार्य"



प्रचार समिति द्वारा आयोजित कीर्तन में श्री दादीजी का शृंगार





STEEL SALES (I) AGENCY

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700001

Resl. : 67-4272

Office : 22-0169



नीच की नम्रता अत्यन्त दुःखदायी है। अंकुश, धनुष, साप और
विही मुककर ही मारते हैं। "वाल्मीकि"



Haralalka Cloth Syndicate

57, JAMUNALAL BAZAZ STREET,

CALCUTTA-7



SHREE KRISHNA TEXTILE CORPORATION

142/1A, JAMUNALAL BAJAJ STREET,

CALCUTTA-7

With the
Compliments of

BANGA PRADESH INDUSTRIES

43, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-700016



षादक्ष चाहे पदवियाँ और जागीरें वरसा दे, दौलत चाहे हमें
हूँ, लेकिन ज्ञान को तो हमें ही खोजना पड़ेगा "यंग"



Associated Tea And Trading Co.

Head Office : DIBRUGARH-786001

(ASSAM)

TEA PLANTER AND OWNER
OF TEA GARDENS

MANUFACTURER OF CTC
TEA

LALLACHERRA TEA ESTATE
P. O. VERNERPUR, CACHAR
SOUTH CACHAR TEA ESTATE
P. O. JAFFIRBAND
CACHAR

बढ़ा भारी अन्धा कौन है, जो काम वश व्याकुल है।

“स्वामी शंकराचार्य”

शुभ कामनाओं सहित :—



गरियाहाट सोसाईटी

मफतलाल ग्रुप आफ मिल्स का अनुमोदित

खुदरा विक्रय केन्द्र

पी-११, गरियाहाट रोड,

कलकत्ता-७०००२६

फोन : ४६-७८३८
४०-१८७०



शरीर रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप
नहीं है।

“लोकमान्य तिलक”





Petrocarbon & Chemicals Co.

46-C, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-16

Phone : 43-2451/2

एक आदमी दूसरे के मन की बात जान सकता है तो केवल
सहानुभूति और प्यार से—उम्र और बुद्धि से नहीं।

"शरत्चन्द्र"

*With Best
Compliments Of*

Telegram : ALJUTLES
CALCUTTA

Telex : EIC CA—7023



ALLIANCE MILLS (LESSEES) PVT. LTD.



QUALITY MANUFACTURERS AND LEADING EXPORTERS OF
HESSIAN CLOTH & BAGS, SACKING CLOTH AND
BAGS AND TWINE
SPECIALIST IN RUSSIAN AND JAPANESE QUALITY

Mills :

Alliance Jute Mills (South)
Jagatdal, 24-Parganas
Phone : BHT 349, 331, 150

Office :

18, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001
Phone : 22-3401 (5 Lines)

जिसमें शराफत और ईमानदारी नहीं उसके लिये समस्त ज्ञान
कष्टकारी है। 'मौण्टेन'



Telegram : "NERLASATCO"

Phone : 33 7684

NURELLA SATYANARAYANA & CO.

(Iron & Steel Merchants & Commission Agents) ,

110/1B, AMHERST STREET,

CALCUTTA-700009



DEOKI HOSIERY FACTORY

74. BURTOLLA STREET,

CALCUTTA-7

Office : 33-2923

Resl : 33-7658



Gram : TUSNIAL

Phone : 22-0545



NARSINGPORE TEA CO.



4, SYNAGOGUE STREET,
CALCUTTA-700001



कोई ऐसी घड़ी नहीं जो मेदे गुजरे हुए घंटो को फिर से
बजा दे। 'डिकेन्स'

With the
Compliments of

This Cottage of Small Scale Industry
is requesting your Kind Co-operation
For National Development.

Phone : 614-305

SWASTIC SHILPAYAN

Manufacturer of :

PHENYL, CRESOL SOAP SOLUTION (LYSOL I. P.).
LIQUID-SOAP, ANTISEPTIC LOTION, ETC ETC
P. O BARUIPUR,
Dist. 24-PARGANAS
(WEST BENGAL)

With the
best Compliments
of

N. M. TRADING CORPORATION

2/A, BALAI SINGHEE LANE,

CALCUTTA - 9

Phone : 35-3149

With best
Compliments of

Crown Steel Products

Manufacturer of quality steel
furnitures & steel Pipes,

11/3G, CANNAL CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA-67

Phone : 35-2410

स्तुति

(तर्ज : सुन के तेरी पुकार : फिल्म फकीरा)

सुनले मेरी पुकार, आया चरणों में दादी तेरे,
जीवन से हार, करलो स्वीकार, ओ भवानी मेरी माँ भवानी-२

पाप कमाया जग में मैंने, नाम तेरा ना गाया है
झूठी माया के चक्र में, हीरा जन्म गवांया है
पाया तुमसे ही ज्ञान SSS पाया तुझ से ही ज्ञान
मिटा मन का अन्धेरा, मैया तू तो है महान,

करदे कल्याण...ओ भवानी...

दुष्कर्मों का फल तो मिलेगा, कडुवा हो या फीका हो
श्रेष्ठ सकेँ हम शक्ति देना, संकट चाहे जैसा हो
रखना इतनी सी बात SSS रखना इतनी सी बात
भूल पाये न दादी तुझको, धोली सती मात

दिन हो या रात...ओ भवानी...

गंगा जमुना चरण पखारे, रवि-शशि सुमन चढ़ाते हैं
धोली सती के पदपंकज में, देव-ऋषि झुक जाते हैं
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर मैया, तेरी ज्योति जगाते हैं
धोली सती के पदपंकज में, देव-ऋषि झुक जाते हैं
तेरी शक्ति अपार SSS तेरी शक्ति अपार
तू है दुर्गे भवानी मैया, सिंह पे सवार,

पाया ना पार...ओ भवानी...

स्तुति

(तर्ज : कभी-कभी मेरे दिल में ..)


सुनो-सुनो हे भवानी तुझे सुनाते हैं
कि तेरे बेटे रो रहे हैं तेरी यादों में। डेर।

कि तेरे बिन माँ, नहीं कोई इस जहाँ में मेरा
ये मेरे आँसू कह रहे हैं, तू सुने न सुने। डेर।

तू मुझको मैया धन की लालसा नहीं देना,
कि लोग तुझको भूलते हैं, सुख के सागर में। डेर।

तू अबतो आज लुट रही है मेरी साज हे माँ,
कि मैंने तुझको बसाया है मन के मन्दिर में। डेर।

Space



Donated



By

GOURI SANKAR LOHIA
TINSUKIA (ASSAM)

आराम हराम है। आराम उनके प्रति विश्वासघात है जो इस
संसार से चले गये हैं।
“जवाहरलाल नेहरू”



कीर्तन में लीन भक्त गण

स्तुति

तर्ज :—साली सांची सांची...

दोहा :

दुख पावा हां मां मेरी चिन्ता है दिन रात
के थारे मन में वसी कहथो मन की बात


मैया थे तो जाणो सब घट पट की
बोली म्हारली या नाव केया अटकी
बीष भंवर में नैया म्हारी-डगमग कोला खावे
थारे बिन कुण मैया म्हारी नैया पार लगावे
मैया थे तो सुणो हो बात सबकी बोली म्हारली

मेरे मन को दुखदो सारो थारे आगे खोज
मीथो साधो भगत है थारो सांची सांची भोज
बात जाणुं ना में तो लट पटकी ...बोली म्हारली


थारे घर में काई कमी है शोला भर-भर वांटो
भूल हुई के मेरे से ना देवो और ना नाटो
नही तो कहथो ना बात मेरे बस की बोली म्हारली

तानल करके आवो मैया मतना बार लगावो
भोला भाला भक्ता न थे नयुं इतना तरसावो
थारो बात उढोका म्हे कद की ...बोली म्हारली

थारे दरसन खातिर मैया मनदो म्हारी तरसे
के अईयां ही जाऊंगा मैं खाली तेरे दर से
'तारा चन्द' कहे लाज राखो सबकी • बोली म्हारली



GANESH RICE MILLS



161/1, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-7

सुब और आनन्द ऐसे ड्र है, जिन्हे जितना अधिक आप
दूसरों पर छिड़केंगे, उतनी ही अधिक सुगंध आपके अन्दर
आएगी।

"एमरसन"

स्तुति

आज म्हारे आंगणिये में घोली सतीजी आईजी,
घोली सतीजी आईजी, भक्ता रे मनड़े भाईजी ॥ टेरे ॥

रोली, मोली शिर पे चुनड़ तारा खूब सजाईजी,
नाक में नकलेसर सोवे, मांग सिन्दूर लगाईगी ॥ आज ॥

केशर चन्दन शिर पे बोरियो हाथां मेहन्दी रचाईजी,
पग में पायल घुंघुरी वाली, त्रिशूल हाथ लिये आईजी ॥ आज ॥

सिंह सवारी आप विराजो, फतेहपुर वाली माईजी,
कर दुरमन का नाश, भक्त का कष्ट मिटावन आईजी, ॥ आज ॥

ज्वाला मैया आज पधारो, इस कलयुग क मांहींजी,
ज्योति से ज्योति मिली सतियांकी, स्वर्ग लोक क मांहींजी ॥ आज ॥

फतेहपुर मांही आप विराजो, "घोली सतीजी" माईजी,
भक्ता पर जब भीड़ पड़ी तब, दौड़ी-दौड़ी आईजी ॥ आज ॥

अपार शक्ति की दाता मईया, सब मिल आरती गाईजी,
'प्रचार समिति' थारा गुण गावे सुख सम्पत्ति देवो माईजी ॥ आज ॥


स्तुति

ओढ़ल्यो तारा की मां चुनड़ी, म्हारी फतेहपुर वाली मां
हीरा पन्ना जह्योड़ी, ओढ़ल्यो तारां ॥ टेरे ॥

लाल-लाल रंग लयायो मैं चुनड़ी, चांद सूरज रथें सजवायो ।
गोटो च्याहँ ओर लगायो, मोत्याँ सँ मैं भरवायो ।
सोहँ मां सिर पर थारै सोवणी, म्हारी फतेहपुर वाली...

लाल-लाल-रंग माग में सोवे, मुखड़े पे छाई लाली ।
रोली को टीको माल में सोवे, मोली हाथ बँधाई ।
हाथ मां सिर धरोनी, म्हारी फतेहपुर वाली...

मादी मां वस न मां थारो, लागे मेलो भारी ।
दरशन करणे दूर-दूर मैं, आवे लख नर-नारी ।
'रमेश' की सुणल्यो मां थे बिनती, म्हारी फतेहपुर वाली...



ARVIND EXPORTS (P) LTD.

'NAVJEEVAN'


KAZI SAYED STREET,

BOMBAY-400003

श्रेष्ठतम मार्ग खोजने की प्रतीक्षा के बजाय हम गलत रास्ते से
चलते रहें और बेहतम गस्ते को अपनाते रहें।

"जवाहरलाल नेहरू"

स्तुति



थाने पलकां मे छिपाव्या, थाने हिवडे में वसाव्या माँ !

म्हारे स दूर कैया रहोला । हो S S...

थारे चरणां मे चित्त ल्यावा, थारे मजनां मे रम जावां माँ ।

म्हारे स दूर कैया रहोला ॥ हो S S...

थारे पगल्यारी पायल वण जावाला,

वण कर नारियल भेद चढ जावाला ।

थारे भक्ता स दूर-दूर कैयां जावोला, ओ मैया कैयां जावोला,

थारी रोली में वस जावां,

थारी मोली में गुथ जावा माँ । म्हारे स... ।

थाने पलका...

थारे मन्दिरिये री ड्योही वण जावाला,

थारे भक्तां पगारी धूल पावाला ।

थारे चरणां स दूर मैया कैयां राखोला जी, मैया कैयां राखोला,

थारी मेहदी वण डग जावा,

थारे हाथा में रच जावां माँ । म्हारे स ॥

थाने पलका...॥

थारे चूडारी लाख वण जावाला,

थारी चुनही में तारा वण जढ जावाला ।

थारे भक्तां स दूर-दूर कैयां जावोला जी थे तो कैयां जावोला,

थारी काजलियो वण जावा,

थारे नेणां में छिप जावां माँ । म्हारे स...॥

थाने पलका...॥

थारी पूजा रो थाल वण जावाला,

थारी माला रा फूल वण मुस्कावाला ।

म्हाने हिवडे स दूर मैया कैया राखोला जी मैया कैयां राखोला,

थारो दीपक वण जावा, वणकर वाती जल जावां माँ म्हारे स...॥

थाने पलका...॥



BASANT PAPER MILLS LTD.

MANUFACTURERS OF ALL KINDS OF PAPER.

Registered Office :

'SHANTINEKATAN'

8, CAMAC STREET,

CALCUTTA-700017

Telex : CA-2381

Gram : BASANTPULP

Phone : 43-2748, 44-3977

Varanasi Office :

B-27/98-A-7, Padmapuri Colony

DURGAKUND

卐 VARANASI-221 005

Telex : 054-212

Gram : BASANPULP

Phone : 54947, 53228

Factory :

BASANT NAGAR,

P. O. RAMNAGAR

Dist. VARANASI (U. P.)

जहाँ कोई आशा नहीं है, वहाँ कोई प्रयास नहीं हो सकता।

"जानसन"

स्तुति

रंग गुलाबी और अबीर, लयाया रोजी और सिन्दूर,

सुण म्हाारी दादी ए S.S.S, मैया ए S.S.S

होली खेलांगा थारे आंगण ।

रंग गुलाबी, मुख पर मलस्यां, माथे भरें सिन्दूर,

रोली को थारे टीको करस्यां, रंग देस्यां भरपूर ।

मना जो करसी नहीं, मानस्यां, रंग देस्यां थारो चीर

दादी ए S.S.S, मैया ए S.S.S...॥

होली का दिन आया म्हाारी दादी, भर पिचकारी लयावो,

जीवन भर जो कदे न छूटे, ऐसो रंग लगावो ।

थारे ही रंग में रंगव्यो म्हाजे, रंग हो सारी शरीर,

दादी ए S.S.S, मैया ए S.S.S...॥

प्रेम रंग से भरौ पिचकारी, भक्ति भस्त्रो अबीर,

दादी जी भी होली खेलण हो गई आज अबीर ।

ममता को रंग म्हाारे भरव्यो, "रतन" है थारो फकीर,

दादी ए S.S.S, मैया ए S.S.S...॥

स्तुति

तुम्हीं मेरी मैया, धोली सती माँ, तुम्हीं प्रेरणा हो, तुम्हीं प्रेरणा हो ।

कुछ तो बता दो मेरी माँ भवानी,

छिपी तुम कहाँ हो, छिपी तुम कहाँ हो ।

तुम्हीं मेरे नयनों की, ज्योति हो मैया,

तुम्हीं मेरी नेया, तू ही खिबया,

मे काठ का हूँ नन्हा सा पुतला,

तुम्हीं प्राण, मेरे तुम्हीं चेतना हो । तुम्हीं मेरी मैया...॥

तुम्हीं जिन्दगी माँ । तुम्हीं दिल की धड़कन,

तुम्हीं साज मैया, तुम्हीं सुर को सरगम,

तुम्हीं तो बसी हो गीतों में मेरे,


संगीत तुम माँ, तुम्हीं वन्दना हो । तुम्हीं मेरी मैया...॥

खिले फूल मन के, जो तुम सुखरा दो,


आ जावो मैया, दर्शन दिखा दो,

बस एक बार मैया तुम भी तो कह दो,

बटे हो मेरे तुम्हीं आत्मा हो । तुम्हीं मेरी मैया...॥



With Best
Compliments
From



A. C. BATRA & SONS

DEALERS IN
TIN PLATES & IRON SCRAPS

1050, PAN MANDI,
SADAR BAZAR,
DELHI-110006

Office : 51 82 41
51 34 36

Resl : 51 89 66

सुरज के चूक जाने पर अगर तुम अलस रहते हो तो सिकारी
जो भी खो देते हो ।

लावेक

स्तुति



तर्ज...हम तो तेरे आशिक हैं (फिल्म...फर्ज)
दुर्गे मैया आये हैं, तुझको मनाने,
चाहे तू माने, चाहे ना माने ।
फूल तेरे कदमों पे लाये चढाने,
चाहे तू माने, चाहे ना माने....-दुर्गे मैया ।
करती है मां सिंह की सवारी, महिमा न्यारी है,
शोभा प्यारी है, मां जगदम्बे ।
घर-घर में तुमसे है दिवाली, जग से निराली है,
शेरावाली है, मां जगदम्बे ।
फरियाद अपने, हृदय की सुनाने,
चाहे तू माने चाहे ना माने ।
रो-रो खड़े कब से पुकारे, गम के मारे है,
वे सहारे हैं, मां जगदम्बे ।
तेरे सिवा कौन है ठिकाना, तुम्हें अपनाना है,
दिल में ठाना है, मां जगदम्बे ।
किसको सुनायें जाके, गमके फसाने, चाहे तू माने....
मत्तलब की है दुनिया सारी, झूठी यारी है,
रिस्तेदारी है, मां जगदम्बे ।
दौलत का है बोलवाला, जग निराला है,
बड़ा घोटाला है, मां जगदम्बे ।
लोग यहाँ अपने, हुए है बैगाने, चाहे तू माने....
हमने सुना तू है बड़ी दानी, मां भवानी है,
तेरी ना शानी है, मां जगदम्बे ।
आके हमें दे-दे तू सहारा, तुझ पे वारा है,
जीवन सारा है, मां जगदम्बे ।
गाये "राजू" हिलमिफ के तेरे तराने—चाहे तू माने....



SAWALRAM SHROFF

C/o. DANMULL BHURAMULL

16. INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-1



रहिमन तव लागि ठहरिए, दान-मान सनमान ।

बदन मान देखिए भव हि, तुम्हारे करिय पयान ॥

"रहीम"

स्तुति


तर्ज :—ओ मेरी महवूवा (फिल्म : धर्मवीर)

ओ मेरी दादी मां मेरी दादी मेरी मा
तेरे द्वार पे आए हैं तुझे शीश बवाए ह
तुझे छोड़कर मां रुदा जायेंगे
तेरे द्वार पे, तेरी पूजा को, मां रोज आयेंगे...ओ मेरी...

दुनिया में कई निगले लोग रहते हैं
मां तेरे नाम को वदनाम करते हैं
शक्ति के नाम पे ये ढोंग रखाते हैं
घर-घर में जाकर अपनी पूजा कराते हैं
तू तो है मां। जाने सभी,
तेरी नजरों से कैसे ये बच पायेंगे
कि मोते हूये, ये निज कर्मों की, सजा पायेंगे...ओ मेरी...

दौलत का ढेर ना मुझे चाहिए,
सुखको भवानी तेरा प्यार चाहिए,
सुखसय संसार में, मैं जो खो जाऊंगा,
दौलत के दर्प में तुझे भूषा जाऊंगा,
तुमको है मां! भूलें नहीं,
तेरी शक्ति का तुझसे वरदान पायेंगे...तेरे...द्वार...

जीवन सजाल से मुझे शक्ति दो,
गाऊँ मैं गीत मां मुझे शक्ति दो,
तेरी शक्ति को मां दुनिया है मानती,
दादी के नाम की महिमा है जानती,
दादी है मां। सुनले मेरी,
तेरे चरणों में मां तेरे गीत गायेंगे...तेरे...द्वार...



M/s. HASIMARA INDUSTRIES LTD.

**5 & 7, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001.**



DIVISIONS :

BEECH TEA GARDEN

P. O. HASIMARA

DOOARS

BHARNOBARI TEA GARDEN

P. O. HASIMARA

DOOARS

SATALI TEA GARDEN

P. O. HASIMARA

DOOARS

TUMSONG TEA GARDEN

P. O. GHOOM

DARJEELING

कितनी दुःखद बात है कि मनुष्य की सबसे सुन्दर भावनाएँ भी
पैसे से सम्बन्धित है।

“बाकजाक”

स्तुति

(तर्ज :—जोट के आज्ञा मेरे...)

आ दरश दिखादे सती मां तुम्हें तेरे लाल बुझाते हैं।
तुझे रो-रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुझाते हैं ॥

आँखों के आसु सुख चूके, मां अब तो तू दरश दिखादे
कब से खड़े मां दर पे तिहारे मन की तू प्यास बुझा दे
तेरी लीला जिराली सती मां.....तुम्हें तेरे लाल

बीच भँवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगादे
तेरे सिवा मां कोई नहीं है आकर तू गले लगाले
क्युं देर लगाती सती मां.....तुझे तेरे लाल

इब रहा है सुख का सूरज और गम की बदरिया है छाई
उजड़ गई बगिया जीवन की मन की फली मुरझाई
करे धिनती ये बालक मां.....तुम्हें तेरे लाल

स्तुति


बालो रे साथीझा आपा दादी गुण गावां
कलियुग में सतयुग लयावा

रुठे माई वन्धु चाहे रुठे दुनिया सारी
देखो माया रुठे नहीं दादीजी हमारी
जांकी दया से भव तर जावो...आपा

आदोसी पादोसी ने भी साग लेता चालो
बेरी भी होवे तो माया गले से लगाव्यो
हिल मिल चान्या घणा सुख पावां...आपा

नीन्दहली फिरेली आड़ी करेली विगाहो
हेला भी मारेला सुख पाह्ला थे पधारो
पाह्लो देख्यां से माया पछतावा...आपा

गली रे गली में दादी घुन लग जावे
देखा फिर कयां सतयुग नहीं आवे
'भँवर' जगत में ना फिर आवो...आपा



With Best
Compliments
From



YAK & YATI HOTEL LTD.

LAL DARBAR,
KATHMANDU
(NEPAL)

●
Phone : 13580



नारी एक ईश्वरीय उपहार है जिसे स्वर्ग के खोजने पर ईश्वर
ने मनुष्य को उसकी क्षतिपूर्ति के लिये दिया है।

गोटे

स्तुति

(तर्ज :—खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली)

धोली सती दादी के आगे, जो कोई अरजी घर देसी।

भक्ता की प्रतिपाल या दादी, मनस्या पुरी कर देसी ॥ टेर ॥

(१)

गाँव फतेहपुर वण्यो देवरो, बस डवजा फहरावै है।

दूर दूर से आकर दुनियाँ, दादी का गुण गावै है।

ऐसी है दातार या दादी, आनन्द आठ पहर देसी ॥

— भक्ता की प्रतिपाल —

(२)

क्यूँ दुविधा मे फिरे भटकतो, कयाने मन भरमावै है।

सीधो साधो तूँ दादी के, शरणे क्यूँ नहीं आवै है।

निर्धनियाँ न धन दे दादी, बेधरिया न घर देसी ॥

भक्ता की प्रतिपाल.....

(३)

जग मेग ज्योति जगी दादी की घर घर चरचा होरी है।

मन में आँस संजोकर चाली, कोई माँवल कोई गोरी है।

बाझडियाँ न वास्तकिया और कन्यावा न वर देसी ॥

भक्ता की प्रतिपाल.....

(४)

खूब सज्यो सिणगार चूनड़ी, चुड़लो चमकरहो न्यारो।

मेहन्दी राच्या हाथ सामने, छप्पन भोग घसो सारो।

आज 'विहारी' ले ले दादी, हँस कर धोली भर देसी ॥

भक्ता की प्रतिपाल.....

श्री श्री धोली सती दादीजी की जय



SHREE GANESH STEEL ROLLING MILL

Factory :

14-A, ENNORE HIGH ROAD,
MADRAS-600 019

Phones : 55 27 30 & 66 59 51

Cable : "EXPOSTEEL" MADRAS

Head Office :

11, Jitendra Mohan Avenue,
CALCUTTA-700 006

Phone : 55 8869, 55-6221,
54-3114

Cable . "STEELIMP" CALCUTTA

RE-ROLLERS, IMPORTERS, EXPORTERS

सच्चे आदमी अपनी सच्चाई का ढिंढोरा नहीं पीटते।

"तिलक"



Gram : "CHAKRALAC"

Telex : 021-2601

Dial : 34-0964

33-8965

Resl : 44-3867

SARAF ENGINEERING WORKS

9, PARSEE CHURCH STREET,
CALCUTTA-700001

Stockists of Refractories :

MAGNESITE BRICKS, STEPPER HEADS, RAMMING MASS,
D. B. PEAS & HIGH ALUMINA ROOF BRICKS



BRANCHES :

Bombay Office :

203 "D" POONAM APARTMENTS

Dr. Annie Besant Road,

Worli,

Bombay-400 018

Phone : 372003

Delhi Office :

MR R. C. CHOKHANI

7A/51, W. E. A.

Karol Bagh

New Delhi-110 005

Phone : 56-8842

Faridabad Office :

15/2, Milestone

Mathura Road,

Faridabad (Haryana)

Phone : 3020

जिसने गर्भ किया उसका पतन अवश्य हुआ ।

"स्वामी विवेकानन्द"

With the best compliments from :

'GANGES' FOR QUALITY JUTE GOODS

Manufacturers of

CANVAS & TARPULINS & SPECIAL & ORDINARY HESSIAN INCLUDING
FINE & CARPET BACKING & ALL SACKING & TYLINE

THE GANGES MANUFACTURING COMPANY LIMITED.

Head Office :

7, Council House Street, Calcutta-1

Phone : 23-6181

Telex : 7293 JAYKAYCAL

Gram : GANGJUTMIL

3577 :

BANSBERIA

Dist : HOOGHLY

Phone . Tribeni 441 & 442

*With the
Compliments of*

M/s. WESTERN INDIA MACHINERY CO.

24, GANESH CHANDRA AVENUE,

CALCUTTA-700013

Phone : 23-5011, 22-6463

With the
Compliments
of

SARAF AGENCIES PVT. LTD.,

9, PARSEE CHURCH STREET,
CALCUTTA-700001

Gram : "CHAKRALAC"

Telex : 021-2601

34-0964

Telephone : 34-0967

33-8952



Stockists of :

M/s ROCKWELD ELECTRODES INDIA LTD.



Buying Agents of :

CEMENT BAGS, ETC.



हर राष्ट्र के गुण-अवगुण सदैव उसकी कक्षा में अंकित रहते हैं।

“रहिकन”



EXTRUSIONS

LARGEST MANUFACTURES OF POLYETHYLENE FILM

P-38 INDIA EXCHANGE PLACE,

CALCUTTA-700 001

Factory No 1 : 5, Nawabpatty Street, Cossipore, Calcutta-2

Factory No 2 : 208, B. T. Road, 24 Parganas



TELEPHONES :

Office : 22 0513 & 23-5133

Cossipore Factory : 56-3840 & 56-3076

B T Road Factory : 58-1950 & 58-2227

Residence :

KASERA HOUSE

15/D, Raja Santosh Road,

Calcutta-700 027


Telephone : { 45-0348
45-0958



अन्याय सह कर बैठ रहना, यह महा दुःखकर्म है ।

न्यायार्थ अपने वन्धु को भी, दण्ड देना धर्म है ॥

“मैथिली शरण गुप्त”



With the
Best
Compliments
of

Telegram : KEJRIWAL

Telephone : { Fact. : 2262
Offi. : 2134
Resi. : 2050

DARBHANGA ENAMELWARE COMPANY

Manufacturers of :—

HOSPITAL, HOUSEHOLD

&

ELECTRICAL ENAMEL GOODS.

OFFICE AT :

INDUSTRIAL ESTATE

DARBHANGA

जिन्दगी छोटी है। मैं उसे शत्रुता बनाए रखने या अपराधो
की याद में नहीं गुजारना चाहता। "जान ब्राइट"



Gram : SOMANINDIA

Phone : Offl . 55-3793
Fact . 66-5247

MAHESHWARI MINERAL INDUSTRIES

Manufacturers of :

INDUSTRIAL MINERAL, CLAYS & REFRACTORIES

Required by · Steel Foundry, Grey Iron Casting, Pottery,
Paint, Glass and so Many Other Industries.

Administrative Office : 2. Sett Pukur Road, Calcutta-700002

Factory : 149, J N Mukherjee Road, Howrah

*With the
best
Compliments
of*

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

LEADING ROAD CARRIERS.

Head Office :

119-B, Chittaranjan Avenue,
CALCUTTA-73

Phone : { 34-6859
34-5633
34-3725

Gram : "DISCRETION"

Telex : CA-3468


Administrative Office :

East India House,
20, Abdul Hamid Street,
CALCUTTA-700069

Phone : { 23-8037
23-7639
23-3203



STORES & SPARES COMPANY
(BEARING SPECIALISTS)



26/1, STRAND ROAD,
3RD FLOOR
CALCUTTA-700001

जीवन न मनोरंजनस्थल है न आसुओं की खास । जीवन एक
सेवा मदन है । "दाब्दाय"

with
the
compliments
of

G. C. SHARMA & CO.

Oil & Produce Brokers & Mills Agents.

8, AMRATALLA STREET,

CALCUTTA-1

Telephones	Office	: 34-2246 & 34-6189	Telex	: 021-7926
	Residence	: 46-0457 & 46-6070	Telegram	. "APAKISEWA"

卐

ज्ञानी को सबसे अधिक चक्कर में डालने वाली, यदि कोई वस्तु
है तो वह मूर्ख की हंसी ।

“वायरन”



BIRLA JUTE MANUFACTURING COMPANY LIMITED

9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700001

Phone : 22-3476/79 & 22 3495/97

Gram : "JUTWEAVER"

Telex : 7099 A/B JUTWEAV



Manufacturers of quality products, viz :

HESSIAN

GUNNY BAGS

CARPET BACKING CLOTH

ELEPHANT BRAND JUTE CARPETS

SWASTIK BRAND STAPLE FIBRE YARN

CAMEL BRAND CALCIUM CARBIDE



KHAJURAHO & CHETAK BRAND CEMENT



अगर इन्सान सुख-दुःख की चिन्ता से ऊपर उठ जाए तो
आसमान की ऊँचाई भी उसके पैरो तले आ जाए। "सादी"

OM

PRAKASH
SARAF



P. O GARBETA
DIST MIDNAPUR
(WEST BENGAL)



वासना खोटे सोने के समान चमकती तो बहुत है परन्तु परीक्षा
की अग्नि में पड़कर चमकें स्थिर नहीं रहती । "सुदर्शन"

With best Compliments of :

ESTD. 1919

HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED.

Regd Office : 15, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-700 001

Telegrams : "HUKUMILLS" Calcutta.

Telephones : 22-3411

Telex : "HUKUM" CA-2771 *

(5 Lines)

JUTE MILLS DIVISION :

Manufacturers & Exporters of :

QUALITY HESSIAN, SACKING,
CARPET BACKING CLOTH,
TWINE, COTTON BAGGING,
JUTE YARN, JUTE FELT
ETC.

MILLS AT :

NAIHATI, P. O. HAZINAGAR,
Dist. 24-PARGANAS
(WEST BENGAL)

CHEMICALS DIVISION :

Manufacturers of :

CAUSTIC SODA LYE (Rayon Grade),
LIQUID CHLORINE,
HYDROCHLORIC ACID &
HYPOCHLORITE

PLANT AT :

AMLAI, P O. AMLAI PAPER MILLS
Dist. SHAHDOL
(M. P.)

गरुड़ अकेले उड़ते हैं। भेड़े ही हैं जो हमेशा भीड़ लगाती है।

—“अज्ञात”

With best compliments of :

ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

4, B B. D. BAG (EAST), CALCUTTA-I.

Regd Office : P O Rajgangpur, (Orissa)

Gram : GRINDMEDIA

Phone : 23-4071 (5 Lines)

Works :-

P. O. SUKCHAR
B. T. ROAD,
24-PARGANAS.



Works :

A-7, INDUSTRIAL- AREA,
Near Rly. Sgnal Workshop
GHAZIABAD (U. P.)

Manufacturers of :

GRINDING MEDIA, STEEL CASTINGS & CAST IRON SPUN PIPES



M/s. NATIONAL BATTERY CO.

32. GORACHAND BOSE ROAD,

CALCUTTA - 6

Phone : 35-1874



मादव अमावस्या क मेले पर उपस्थित (बायें से) श्री गिरधारी लाल जी सराफ, श्री मगवती प्रसाद सराफ,
श्री नथमल जी सराफ एवं श्री सत्यनारायण जी सराफ

With the Compliments of

BRIJLALL HARGOPAL

(ESTD. 1932)

IMPORTERS, EXPORTERS

A N D

MANUFACTURERS REPRESENTATIVES

Head Office :

INDIA EXCHANGE BUILDING
4, INDIA EXCHANGE PLACE,
(2nd Floor)

CALCUTTA-1

Phone : 22-6168, 22-2882/83

Telex : CA 7900 AB BRIJHAR

CA 7985 AB BRIJHAR

Cable : BREEZHAR

Branch :

"ASHIANA"

79/1, DR. HIRA SINGH ROAD,

CIVIL LINES,

LUDHIANA,

(PUNJAB)

Phone : 29763

Telex : LD-386-373 AB Brijhar

Cable : BREEZHAR

Exclusive Representatives of Wool Suppliers of

Worldwide Fame

Kreglinger (Australia) Pty. Ltd.


10, LOFTUS STREET,
SYDNEY
AUSTRALIA

Compagnie D'Importation

De Laines

12, BOULEVARD GAMBETTA
TOURCOING,
FRANCE

जिसकी आत्मा में वक्त नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे
कुछ भी हो, आदमी नहीं है।
— "प्रेमचन्द"



Balurghat Transport Co.

2. RAMLOCHAN MULLICK STREET,
CALCUTTA-73



Phone : 34-7097/98. Gram : LANDAKOTA, Telex : 021 : 2606



Main Offices : BOMBAY, AHMEDABAD, DELHI, JAIPUR, AMRITSAR,
KANPUR, PATNA, MUZAFFARPUR, PURNEA,
SILIGURI, COOCHBEHAR, GAUHATI & IMPHAL.



Branches : THROUGH OUT INDIA.



मानव की सेवा करना मानव का सर्व-प्रथम कर्तव्य है।

—“विनोवा भावे”



HINDUSTAN PRODUCTS

TINSUKIA
(ASSAM)

मनुष्य बूढा हो जाता है परन्तु लोभी कभी बूढा नहीं होता ।

"सुदर्शन"

*With
Best
Compliments
Of*

Resi : 632079
633385

Off. : 267034
260291

Ramgopal Didwania & Company

IMPORTERS & EXPORTERS



Head Office : 4028, CHAWRI BAZAR, DELHI-110006




Branches : 35, CARNAC SIDING ROAD, BOMBAY-400009
Phone : 348525 & 342620


65, COTTON STREET, CALCUTTA-700007
Phone : 33-9240 & 33-5106

41, SEMBU DOSS STREET, MADRAS-600001
Phone : 23053

जितने दिन जिन्दा हो, उसे, गनीमत समझो और इससे पहले
कि लोग तुम्हें, मुर्दा कहें, नेकीकर जाओ। "सादी"



**With Best
Compliments
From**



Duars Union Tea Company Ltd.



GARDENS

PATKAPARA TEA ESTATE P. O. ALIPURDUAR DIST JALPAIGURI
ORD TERA I TEA GARDEN P O. BELGACHI DIST DARJEELING



Cable : Thskhay Calcutta-5

55 7233, 55 7234

Phones : 55 7235, 55 9353

55 1266, 54 1755

Regd Office :

50, JATINDRA MOHAN AVENUE,

CALCUTTA-700005

INDIA

विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखानेवाला कोई विद्यालय आज
तक नहीं हुआ । "प्रेमचन्द"

With best compliments of :

Gram : NUTPRINCE

Telex : 021-3431 AB GOLDWYN

Office : 22-0303

Phone : Works : { 67-3335
67-2492

THISA (INDIA) PRIVATE LTD.

E 2/3, GILLANDER HOUSE

:NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-1

Manufacturers of : BOLTS, NUTS & Other Allied Products

&

Dealers in : JUTE & HESSIAN BAGS

*With Best
Compliments Of*

Phone : 57-3019
57-3207

METAL PERFORATION PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

177/1, DUM-DUM ROAD,

CALCUTTA-700028

Manufacturers of • All Kinds of Ferrous & Non-Ferrous,
Perforated Sheets, Bandsaw Blades,
Industrial Fasteners, Cable Trays, etc.



Gram : DAGAISPAT

Phone : 31352
612286

FOR IRON & STEEL ITEMS CONTACT
DAGA STEEL SUPPLIERS

53/3, SEMBUDOSS STREET,
MADRAS-600 001



SPECIALISTS OF
DEEP DRAWING QUALITY SHEET



Branch Office :

23A, MOTI NAGAR
BANGALORE-560002

Phone : 66422



ASSOCIATES :

NATHMAL DAGA & CO.

53/3, SEMBUDOSS STREET,
MADRAS-600001

नारी के आंसू एक-एक वृंद में एक-एक बाढ़ लिये रहते हैं।

“जयशंकर प्रसाद”

With Best
Compliments Of

Gtam : GOLDBRICK
Resl. : 45-8594

Phone : 32-1246
33-7121

TARACHAND ASHOKKUMAR

50, COTTON STREET,

Nemani Katra, (1st Floor),

CALCUTTA-700007

With best
Compliments
of

Phone : 22-1479

Techno Engineering & Rubber Industries

H. O. : 23/A, NETAJI SUBHAS ROAD,

(7th Floor, Room No. 10)

CALCUTTA-700001

Branches : NAGPUR, ASANSOL,

Mfgs. : QUALITY ENGINEERING & RUBBER PRODUCTS

With Best Compliments Of



**RAVI CHEM-DYE
&
SINGHANIA ASSOCIATES**




**28, MAHESWAR NIKETAN
5B, PEDDER ROAD
BOMBAY - 400 026**

**Phones : 36 51 85, 38 83 53
26 67 78, 26 51 63**



अपनी इन्द्रियाँ जिसके वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। वह
विद्वान और पण्डित है। "गीता"



With Best
Compliments
From



DRINK GARDEN FRESH
LUKWAH TEA
YOU WILL FEEL SO REFRESH



Manufactured by

LUKWAH TEA CO. LTD.,

1 & 2, OLD COURT HOUSE CORNER,
CALCUTTA-700 001

Phone . 22-8831



विना उरसाह के कभी किसी उरुच लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

“एमसिन”




With the
Best Compliments
of

THE EMPIRE JUTE CO. LTD.

8, OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA-1

Gram : JUTEMPIRE



Phones : 23-7148, 22-0698
23-8467, 23-7356

Mills at :

TALPUKUR : TITAGHAR
24-PARGANAS

Phones : BKP 181 & 182



अपने सखा को अकेले में चुरा भजा कहो, लेकिन उसकी वड़ाई
सबके सामने करो ।
“साडरस”



ASSAM TRADE & AGENCY

Head Office :

MARWARI PATTY

JORHAT-2 (ASSAM)

Phone : 122 & 861



Branch Offices :

(1) HEMBARUAH ROAD,
FANCY BAZAR
GAUHATI-9 (ASSAM)
Phone : 27256

(2) 11, POLLOCK STREET,
CALCUTTA-700001
Phone : 22-8910

(3) SHAKTI NAGAR,
HISSAR (Haryana)
Phone : 2029

(4) BALDEV NAGAR
AMBALA CITY
(Haryana)



सामर्थ्यवान को तो चलकर मगवान से मिलना पड़ता है, किन्तु
निर्वल से मिलने के लिये मगवान स्वयं आते हैं।

“अमृत विन्दु”

स्तुति

म्हारो मनङ्को करै पुकार दादी म्हारी अरज सुणो,
अरज सुणो ऐ मैया अरज सुणो—म्हारो मनङ्को...
म्हारी अंखिया हो गई लाल, दादी म्हारी अरज सुणो,
अरज सुणो ऐ मैया अरज सुणो—म्हारो मनङ्को...

फतेहपुर में थारो भवन विराजे
नित नोपत थारे द्वारे वाने

कोई स्वजा ए फरुकै असमान, दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो...

थारी सुरलियां दादी म्हारै मन भावे
म्हानै दादी जी थारी याद सतावे
म्हानै दरश दिखावो एक वार दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो

रात नै सोबां तो म्हानै नौद कोनी आवै
रोटी खावां तो म्हानै रोटी कोनी भावे

म्हारो धीरज छूट्यो जाय, दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो

चौदस नै थारै रात जगावां
मांवस न थारै धोक लगावां

कोई भजन सुणावां दोग वार, दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो

खीर पुदां को थारै भोग लगावां

बूढ़ो चूनड़ दादी थानै उढावा

थारी आछी करां मनवार, दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो

थारै चरणां का म्हानै दास बणावयो
आकर दादीजी म्हानै हिवड़े लगावयो

थारो 'काका सण्डल' अणजाण, दादी म्हारी अरज सुणो—म्हारो

थारी हो रही जय जयकार दादी म्हारी अरज सुणो ।


थारी लीला अपरम्पार दादी

थारा हो रक्षा मंगलाचार दादी

थानै व्याधे सकल जहान दादी

थारो कोई न पायो पार दादी

म्हानै लेवयो शरण क मांय दादी



SHREE MADHAV RICE MILL



P. O. MIDNAPORE
DIST. MIDNAPORE

Phone : 576

दुःखी हृदय के लिये आत्मीयता की एक नजर कुबेर के खजाने
से भी ज्यादा कीमती है।

‘नेटे’

स्तुति

तेरा दादी जी करेगी वेड़ा पार।
उदास मन जाहे को करे।
नया तू कर दे दादी के हवाले,
जहर-जहर दादी आप ही संभाले,
दादी आप ही जतारे, तेरा भार ॥ उदास ॥

गर निदोष तुझे क्या डर है,
पग-पग पर दादी साथी है,
जरा भावना ले करले पुकार ॥ उदास ॥

सहज किनारा मिल जायेगा,
परम सहारा मिल जायेगा,
होरी साप दे उन्हीं के हाथ ॥ उदास ॥

स्तुति

दादी नट मत झोली घेरी खाली घर है।

मोला टावरिया पर म्हर की नजर कर दे।

घारी पूजा नहीं जाणूँ, दादी भक्ति नहीं जाणूँ।

भक्ति-भाव हँ, दयालू घेरी घट घर दे। दादी नट...

कोई मन्तन नहीं जाणूँ, दादी जाप नहीं जाणूँ।

मोला जानकर, मघानी गिर पर हाथ घर है। दादी नट...

थाँलूँ सोनो नहीं मांगूँ, दादी चाँदी नहीं मांगूँ।

'श्री' चरणां शी रज पाऊँ, यो ही वर दे। दादी नट

थालूँ स्वर्ग नहीं मांगूँ, दादी मोक्ष नहीं मांगूँ।

मेरे हिवहे, ये दादी तेरो घर कर ले। दादी नट...

दादी शिमला नहीं जाऊँ, दादी काइसींग नहीं माऊँ।

धारे भादवे में कतेरपुठ आवां यो ही वर दे। दादी नट...

With the
Compliments
of

VIJAY BHATTIA & BROS

MAULANA AZAD ROAD,
BOMBAY

Phone . 37 17 73

यदि मनुष्य परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवाने पर बिन्धे
चित्र में क्या फर्क है। "सादी"

स्तुति



(तर्ज :—कान्हुड़ा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे)

दोहा :—

जगदम्बा जग तारणी श्री घोली सती मेरी मात ।
मूल चूक सब माफ कर रखियो सिर पर हाथ ॥


ओ फतेहपुर वाली, मोली मेरी भर दे ऐ,
ओ मैया सिर पर दया को हाथ धर दे ऐ ॥ ओ फतेहपुर वाली

घोली पसारे तेरे द्वार खड़ा हूँ,
मोड़ो न खाली दर से शरण पड़ा हूँ ।
आशा तो पूरी मेरी कर दे ऐ ॥ ओ फतेहपुर वाली

किसको सुनाऊँ मैया दरद कहानी ।
पापी हूँ या कपटी हूँ तुझ से न छानी ।
ना कोई घन्घा, ना घर बाड़ी ऐ ॥ ओ फतेहपुर वाली

दया की नजर मैया अब मुझ पे फेरो ।
चरणों की सेवा दादी नित मुझ से लेलो ।
इस तन में ज्योति तेरी भर दे ऐ ॥ ओ फतेहपुर वाली

एक भरोसा मैया, तुझ पे है भारी,
तू ही हरेगी मेरी, विपदा को सारी ।
मेरो गुजारो, तेरे पर है ऐ ॥ ओ फतेहपुर वाली



Mahabir Prasad Shiv Kumar Saraf

119, BLOCK 'F' NEW ALIPORE,

CALCUTTA-700053



Firm :

Bharat Overseas Trade Corpn.

Exporters & dealers of chemicals

32, EZRA STREET,

CALCUTTA-700001

Phone : 32-2667
34-7089

Gram : GARANTEA

एक नम्र शब्द मनुष्य की गर्मी को नष्ट करने के लिये एक
शक्ती ठण्ढे पानी से भी अधिक है।

स्तुति

(तर्ज : वम्बई से आया फिल्म : आपकी खातिर)

फतेहपुर से आओ सती मां, हम पर दया करो ।

भोले भक्तों की हे मां, भूल सारी क्षमा करो ॥टेर ॥

माया की है दुनियां सारी, माया की है रिस्तेदारी ।

सुख के हैं साथी हजारों, दुःख में ना कोई हमारो ॥फतेहपुर॥

हमने सुना है भवानी, तुमसी ना मां कोई दानी ।

जिसने भी तुमको पुकारा, आकर के कारज सँवारा ॥फतेहपुर॥

हम सब हैं बालक तिहारे, जीते मां तेरे सहारे ।

पूजा ना जाने, ना भक्ति, दे दो मां थोड़ी-सी शक्ति ॥फतेहपुर॥

जब तक जीयें ना भुलायें, हर पल मां तुमको मनायें ।

मन में है मूरत तुम्हारी, रखना मां लाज हमारी ॥फतेहपुर॥

स्तुति

(तर्ज—छैला तेरा छैला फिल्म : छैला बाबू)

आजा मां तूँ आजा—२

रो-रो तुम्हे पुकारें, क्यूं मां वेर लगाये ।

सुनले मेरी धोलीसती मां ॥ टेर ॥

इस दुनियां में निर्घन का है, जीना बेकार—२

निर्घन से सब नफरत करते, दौलत से प्यार—२

निर्घन का घन तूँही है मैया, तूँ ही तो है जीने का आधार ॥ आजा

मैं हूँ भिखारी, शरण तिहारी, आया हूँ मां—२

धन-दौलत की चाह नहीं है, दर्शन दे मां—२

दर्शन जो तेरा पाऊँ मैं मैया, हो जाऊँगा भवसागर से पार ॥ आजा

एक भिखारी भिक्षा मांगे, कौन दातार—२

पग-पग पर मां ठोकर मारे, लोग हनार—२

तेरे दर पर आया हूँ मैया सुन ले मा तू मेरी पुकार ॥ आजा



DURGA TIMBER WORKS



1333, DESBANDHU GUPTA ROAD,



KAROL BAGH



NEW DELHI-110005



Gram : "BLOCKS"

Office : 562859
562059

Resl. : 511911

क्या तुम सोचते हो कि तुम एक चीटी तक को अपनी सहायता से बचा सकते हो ? यह सहानुभूति अर्थात्क विचार है ।


“विवेकानन्द”

स्तुति

धोली सती मां फतेहपुर वाली
आये है तेरे दरपे सवाली
दिल में मां तेरी ज्योति जगाये
हाथों में लाये पूजा की थाली... धोली सती मां...
ओ मेरी दादी मैया, तुम्हें सब माने मैया
जगत के लोग सारे तुम्हें है मां पुकारे
तेरे मन्दिर में मैया, खड़े कर जोड़ मैया
करें पूजा तुम्हारी, है मां भक्तों को प्यारी
जगत का झूठा फेरा, तेरे चरणों में डेरा
दिल में भक्तों के रहना, हरपल समाये... धोली सती मां...
तेरे दरबार में मां, भरा भण्डार है मां
जो कोई जैसा चाहे, वैसा ही तुझसे पाए
सोना चांदी जो मांगे, दुनिया का वैभव मांगे
निर्मल सी काया मांगे, सीठी सी वाणी मांगे
सुनने में ऐसा आया, सबने मां तुमसे पाया
सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मां... धोली सती मां...

स्तुति

चरणां का थारे दादी बण क पुजारी,
मन में वसावा सुरत प्यारी, बण कर क पुजारी।
लाल लाल दादी म्हारी, सौहै रंग लाल है।
चून्ड़ लाल, चून्ड़ो लाल, रोलो, मोली लाल है।
मेंहदी स हाथ लाल हो ओ S S S—
मेंहदी स हाथ लाल छवि न्यारी, बणकर क पुजारी। चरणां—॥
नेत्र लाल थारा दादी, वस्त्र थारा लाल है।
देख थाने सुषबुष, खोया थारा लाल है।
लाल गुलाबी फूल हो ओ S S S
लाल गुलाबी खिली फुलवारी, बणकर क पुजारी। चरणां—॥
कुंडल पहसां कानां माय, गले मुण्ड माला है।
सिंह चढी दादी म्हारी, हृदय विशाल है।
किस विध गावां दादी हो ओ S S S—
किस विध गावां महिमा भारी, बणकर क पुजारी। चरणां—॥
आई मांवस भादवै की, मेले की तैयारी है।
फतेहपुर जावागा सजसध, मन में चाव भारी है।
अर्जी है म्हारी दादी ओ S S S
अर्जी है म्हारी मर्जी थारी, बणकर क पुजारी। चरणां—॥



Cable : 'GITAMAHTYA'

Phone : Office : $\left\{ \begin{array}{l} 55-6221 \\ 55-7003 \\ 55-7285 \end{array} \right.$
Works : 69-2518

Overseas Scrap Trading Corporation

Exporters & Dealers in :

All Kinds of Iron & Steel Scrap Materials

OFFICE :

11-A, JATINDRA MOHAN AVENUE,
CALCUTTA-6

★
SCRAP STOCK YARD :

432, G T ROAD, (N) HOWRAH

●
मत भूलो - पृथ्वी तुम्हारे अनावृत पैरों के स्पर्श से हर्षित होती है, और हवा को तुम्हारे केश-कुंतलों से खिलना अच्छा लगता है।

"ख० लि०"

स्तुति



जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे, आया तेरे द्वार ।

लाज मेरी रख लेना ।

रख लेना माँ रख लेना, मेरी लाज को रख लेना ।

जय काली कलकत्ते वाली, होय लिह असवार ।

लाज मेरी रख लेना ।

कामरूप में कामदया, कलकत्ते में काली तूँ ।

बम्बई में बम्बा देवी, मैया फतेहपुर वाली तूँ ।

दूर-दूर सँ आवे यात्री, करते जै जै कार ।

लाज मेरी रख लेना ।

चण्डीगढ़ में माँ चण्डी जामनगर में है ज्वाला ।

रुद्राणी ब्रह्मणी तूँ घर-घर में तेरा उजियाला ।

खड़ग खप्पर तेरे कर में सोहे, मन्दिर है गुलजार ।

लाज मेरी रख लेना ।

अम्बाजा में माँ अम्बे, देवों में दुर्गा मैया ।

तारा अष्ट भुजा वाली, पाव करो मेरी नैघा ।

सात प्रवानी देखो कानी, सुनले करुण पुकार ।

लाज मेरी रख लेना ।

गिरजा, गौरी, अन्नपूर्णा, क्या-क्या तुम्हको बतलाऊँ ।

रसना पे वासा कीज्यो, आदि शक्ति तेरा गुण गाऊँ ।

कह "आलूमिह" श्री चरणां में, सौंप दई पतवार ।

लाज मेरी रख लेना ।

With the
Compliments
of

MANIPUR METAL

MANIPUR,



IMPHAL.



पहले अपराधी तो वे हैं जो अपराध करते हैं और दूसरे वे जो
उन्हें होने देते हैं।

“कुलर”



कीर्तन की एक भावपूर्ण सुद्रा में श्री केशरदेव जी सराफ



माँ ! जन-जन को अपना प्यार दे

हौं, माँ का लाड़ला, लाड़ला सा-प्यार दे ।
प्रति पल तव-चिन्तन का, नित नव उद्गार दे ॥
मानव-मातृ-भाव का, सुस्थिर विमल विचार दे ।
कभी न तुमको भूल सकूँ, पद-वंदन का उपहार दे ।
अपनी कृपामयी नयनो का, ज्योति-पूँज विखार दे ।
जानि आपनो वस्-माँ, स्नेहा-सिक्त प्यार दे ॥

॥ वंदन ॥


तेरी छाया में हम बढ़े पले, यह सौभाग्य तुम्हीं से पाया ।
हम तुम का भेद मिटा दो, दे वरदान की अनुपम छाया ॥
भूल कभी पथ, पग ना मटके, नित नव-नव अनुराग जगे ।
छिन-छिन सुरत अधर पैराखे, तीनके सोये भाग जगे ॥
चिर संयोईत कामना आज, तव-प्रकाश-पुंज बल साकार ।
परख भावना सच्चों की, तूँ दे आदर करती मनुहार ॥
स्वभाविक है भूलना हमारा, औ विसरने का हूँ आदि ।
संबल एक माँ का चितन है, न दूजा कछु सग विभेदादि ॥
हौं विदल परिवार तुम्हारे, प्रति-पल तेरा प्रकाश मीले ।
तेरी आँचल की छाया में, किस्ती अविराम बढ़ी चले ॥
घड़ी पल बीती अरषा बीती, बीते वर्षों पर वर्ष सहर्ष ।
सोल्तास उमंग भरा मन, मना रहा मिल नय-नय वर्ष ॥
कामना की बेली मुँम ठठी, तव-वंदन को थाल संजोये ।
स्वीकार करो माँ स्वीकार करो, मन आरती के द्वीप मलाये ॥
अद्धा-सुमन समर्पण को, लाया हूँ भर-भर थाली ।
नयमल-सत्यनारायण निखरे, जस-माँ के पग की लाली ॥
शुभम् ।

रचयिता : गुलाबचन्द गुप्ता



BASANT UDYOG

(HOUSE OF EXPORTS)



27, BRABOURNE ROAD,
"NARAYANI BUILDING"
(10th Floor)

Gram : EXPOCAST

Phone : 23-9094

Telex : BASANT CA 2556

CALCUTTA-700001

EXPORTERS OF QUALITY CASTINGS & GENERAL
ENGINEERING PRODUCTS

कर्म मे रहकर ही हम कर्म से महान हो सकते हैं। परित्याग
करके या पलायन करके किसी प्रकार भी यह सम्भव नहीं है।

"टेगोर"

स्तुति

शीश बोरलो उस पर चून्ड़ प्रग पायल मनकार
सतीजी थे तो लियो है अजब अवतार
फीणी सांकली शीशफूल कानों में कमर कमके
हाथों में हथफूल सज्या माथे पर बिदिया चमके
गले गलसरी दुल्लरी चुल्लरी पहर नोलखो हार सतीजी

चम चम चम के चमक चुनरी, नथली पलका सार

लूमो लूम रही चुड़ले के, कंगन किरण पसारै,

मेहदी राची जाल सुरंगी, नेणां काजल सार सती

धूम घाघरो घेर दार या कमर तागड़ी सोहे

मांग मरी मोत्यां सै चोटी, नागन को मन मोहे

अंगिया अंग सजाय सुहागण, कर सोला सिणगार सतीजी

इस घरती का जीव चराधर निश दिन शीश नवावे

स्वर्ग लोक का देवा के संग "इन्द्र" तेरा गुण गावे

मन में करे विचार "बिहारी" कैयां करे मनवार सती

स्तुति

म्हारा बेड़ा पार लगा दीज्यो फतेहपुर वाली मां-र

फतेहपुर वाली माय म्हारी घोली सती ऐ माय ॥ म्हारा ॥

टेर सुनो थे अवकी, म्हारी नाव अँवर में अटकी।

अटकी न पार जगा दीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥

हे एक आसरो थारो, नहीं और कोई मां म्हारो।

विपदा में साथ निभा दीज्यो, फतेहपुर वाली मा ॥ म्हारा ॥

दुनिया में तेज तुम्हारो, चम-चम चमके उजियारो।

जीवन में ज्योति जला दीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥

थे दुर्गा रूप बनाओ, चढके सिद्ध पर थे आओ।

मक्ता न दरस दिबा दीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥

म्हारे मन में आशा जागी, दादी नाम की लगन है लागी।

म्हारे मनका कष्ट मिटा दीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥

मत इतना मुझे तरसाओ, कुछ तरस मेरे पर खाओ।

घौंती वाता न भुला दीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥

घर घर में चर्चा थारी, थे हीन दुःखी हितकारी।

इस बालक न अपना लीज्यो, फतेहपुर वाली मां ॥ म्हारा ॥



C. L. Amarnath & Sons

MAULANA AZAD ROAD,
BOMBAY

Phone : 37 92 02

ऐ नोब पेड । एक ही-रोटी से इतमीनान कर ले-ताकि तुम्हें
गुलामी में पीठ को न झुकाना पड़े । "सादी"

स्तुति



ओ राधा म्हाने सांची वताओ जी,

कुण बैरन ले गई, आज म्हारो बांसरी ॥ १ ॥

सावरिया प्यारा, म्हे नहीं जाणा जी,

कुण बैरन ले गई, वा थारी बांसरी ॥ २ ॥

ओ राधा थाने, काई बतावां जी,

मीनडे सँ भी ज्यादा, लागे प्यारी बांसरी ॥ ३ ॥

सावरिया चालो, मधुवन चालां जी,

चावे जितनी ब्यावां, बांसारी बांसरी ॥ ४ ॥

ओ राधा म्हारो, जी ना मलावो जी,

थे ब्यावो जी म्हारे मनड़ा री बांसरी ॥ ५ ॥

सावरिया म्हाने, भोत सताया जी,

म्हारो मनड़ो ललचायो, थारी बैरन बांसरी ॥ ६ ॥

ओ राधा थाने, कदे ना सतावां जी,

म्हाने सौगन है थारी, ल्यावो म्हारी बांसरी ॥ ७ ॥

थारी वंशी कितना नाच नचाया जी,

सारे वृज ने मोह्यो, जादूगारी बांसरी ॥ ८ ॥

ओ राधा थाने पाछी दे देख्यां जी,

एक बर तो थे देखो उधारी बांसरी ॥ ९ ॥

राधा थे काई पुण्य कमाया जी,

बस में थारे दोनों गिरधारी, बांसरी ॥ १० ॥

“ताराचन्द” भी थारो नित यश गावे जी,

घन-घन राधा थाने और बलिहारी बांसरी ॥ ११ ॥

With
Best
Compliments
of

Phone : 33-2555



GHASIRAM MADANLAL



62, NALINI SETT ROAD,
CALCUTTA-700070

प्रेम समस्त गुणों की कुंजी है। जिस हृदय में प्रेम का आवि-
र्भाव नहीं हुआ वह शमशान के तुल्य है।

स्तुति

देखी मटकी पे मटकी, कन्हैया कै या खटकी,

अब खटकी तो कठे है समाई रे

कान्हो कँकरिया जोर की बगाई रे—२। देखी-मटकी पे—...

मटकी जो टूटी राधा दही म चिपटगी

दही की मलाई अंग-अंग सँ चिपटगी

तो साँवरियो मुक्कावे, राधा राणी न चिढ़ावे

राधा शर्म से नैण मुकाई रे...कान्हो कँकरिया...

आज नहीं आई मेरे संग की सहेली

जितना सताले चाहे देख कर धकैली

तेरी माई कन्ने जाख्यँ, सारा हाल सुणाख्यँ

श्याम करै है तू भोत बुराई रे...कान्हो कँकरिया...

हतने में आई दो चार - गुजरिया

कैसो हाल रामाजी को कियो रे साँवरिया

तो ठहर तनै छे बतावाँ, तेरी आदत छुड़ावाँ

गुजरी कान पकड़ ने-छाई रे...कान्हो कँकरिया...

कान पकड़ गुजरी कान्है न नचावै

देखो जी दयालु राधा- कान्है न छुड़ावै

तो गुजरी गुस्साई, राधा बीच बोलन आई

और साँवरियै सँ कँकरी की खाई रे...कान्हो...

राधाजी की प्रीत देखकर छुण हरपायो

खुशी होय नाच-नाच मुक्की बजायो

तो राधा मन आयो, मोठी तान सुनायो


राधा सुषडुष सारी भुलाई रे...कान्हो कँकरिया...

अक कै-भी मन में-काँकरी की लागी,

काँकरी की लागी तो श्याम अकि जागरी

तो गावाँ गुणगान, घराँ श्यामजी को ध्यान,

जन-जन नै यो बात बताई रे...कान्हो कँकरिया...



With Best
Compliments
From



Phones : 270251
267611

Grams : TUBESHELL
Telex : SUREKHA ND 3626

Diwakar Engineers Limited

Manufacturers of :

Steel Tubes & Pipes, Tube Mills & Exporters

REGD OFFICE :

1/5-B, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002 (INDIA)

Branch Office :

'Kanak Building' 41, Chowranghee Road, Calcutta-700016

Phone : 244874 - 240802 - Telex : CA-2763



सिद्धि-चमत्कार आदि के पीछे मत पड़ो, -यहाँ तक कि ऐसी
बातों को पैर तक से मत छूना।
"विवेकानन्द"

स्तुति

आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया, सुदामा मिखारी।
क्या मैं बताऊँ, क्या मैं सुनाऊँ,
एक दुःख नहीं जो मैं, मन में लिपाऊँ।

घट-घट की मानत हो तुम हे मुरारी ॥ तेरे दर पे.....
नेनों में आँसू, उठे ना कदम हैं,
आओ कन्हैया अब तो, होठों पे दम है।
आकर के देखो, दशा तुम हमारी ॥ तेरे दर पे.....
ना तो डगर है, ना कोई घर है,
फटे हुये कपड़े हैं, तुम्हे सब खबर है।
क्या तुम परीक्षा, लेते हमारी ॥ तेरे दर पे.....
आवाज मेरी, पहुँची नहीं क्या,
दरवान ने तुमको खबर दी नहीं क्या।
क्या नींद में तुम सोये मुरारी ॥ तेरे दर पे.....
क्या मुझसे दोष हुआ, हुआ क्या गुनाह है,
दीनों के नाथ क्यों तू, निष्ठुर बना है।
पाप किया है क्या, मैंने बढ़ा भारी ॥ तेरे दर पे.....
आओ कन्हैया, छूटे अब तो दम है,
अगर अब ना आवोगे तो, माँ की कसम है।
माँ की कसम सुनकर, पहुँचे मुरारी ॥ तेरे दर पे.....

स्तुति

श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया,
कृष्ण पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया ओ S S
ऐसी रंगदे, रंग नहीं छूटे, ओ S S
घोबिया घोये चाहे सारी उमरिया ॥ श्याम०
साक न ओढ़ूँ पीली न ओढ़ूँ, ओ S S
मैं तो ओढ़ूँ श्याम काली कमलिया ॥ श्याम०
गागर भर दे, सर पर रख दे, ओ S S
चल के बता दे श्याम तोरी नगरिया ॥ श्याम०
बिना रंगाये, घर नहीं जाऊँ, ओ S S
बीत जाये चाहे सारी उमरिया ॥ श्याम०
मोरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ S S
श्याम चरणा में मोरी लागी नजरिया श्याम०॥

With the
Compliments
of

Phone (33-513)

KUTIR UDYOG KENDRA

58/3, CANNING STREET,

CALCUTTA-700001

Dealers in

ALUMINIUM PLAIN SHEET, COIL SHEET, CORRUGATED
SHEETS, CHEQUERED PLATE, WIRES, TAPES, LADDERS
ETC. ETC.

दुष्ट को उपकार से नहीं, अपकार से ही शान्त करना चाहिये।

‘कालीदास’

स्तुति



दर्श करा दे मैया लाल का, जोगी मैं पूरे सौ साल का।

कैलास से आया हूँ, आशा यह लाया हूँ।

ना देर करो मैया, मैं दौड़ा आया हूँ।

पालना दिखा दे तेरे लाल का ॥ १ ॥ जोगी मैं०

तेरे गल्ल सर्पन माला, डर जाये मेरा लाला।

बीत्योही उमरिया में, पाया मैंने वाला।

ले जा खजाना तू माल का ॥ २ ॥ जोगी मैं०

क्या उसे डराऊँ मैं, कैसे बतलाऊँ मैं।

कैसे मनमोहन का, मैया दर्शन पाऊँ मैं।

भुखा नहीं मैं तेरे माल का ॥ ३ ॥ जोगी मैं०

तू हठ ना कर जोगी, क्या अकल तेरी खोगी।

गोपी सब आयेगी, गर खबर उन्हें होगी।

छोड़ो यह जिह बवाल का ॥ ४ ॥ जोगी मैं०

जोगी जब गमन करे, मन मोहन रुदन करे।

पुचकार रही मैया, लाला नहीं धीर धरे।

जोर नहीं गोपी बवाल का ॥ ५ ॥ जोगी मैं०

गोपी जब भाई है, जोगी को ल्याई है।

गोदी में मैया के, शिव देखे कन्हाई है।

शाड़ा दिया है कमाल का ॥ ६ ॥ जोगी मैं०

मोहन जब मुस्काये, सखियां मंगल गाये।

हे नाथ खबर ले लो, यों "आलूसिह" गाये।

भारी भरोसा गोपाल का ॥ जोगी मैं०

with
the
compliments
of

Phone : 22-1219
23-7258

PREMRAJ HAZARIMULL

4, SYNAGOGUE STREET,

CALCUTTA-700001

अपने ऊपर असीम विश्वास स्थापित करना और अकेले बैठकर
अन्तरात्मा की ध्वनि सुनना वीर पुरुषों का ही काम है।

“एमरसन”

with
the
compliments
of

Prakash Trading Corporation

161/1, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-7



Phone : 34-9094, 9450
45-9854, 9037



VEGETABLE OILS



ईमानदार आदमी का सोचना लगभग सदैव न्यायपूर्ण होता है।
“रुसों”

*With best
Compliments
of*

JHAJHARIA & COMPANY

**3-B, CAMAC STREET,
(2nd Floor)**

CALCUTTA-700016

Phone : 24-9633

Agents For **"MAN" STEEL DOORS & WINDOWS SECTIONS**

Rolled By : **MAN INDUSTRIAL CORPORATION LTD.,**

JAIPUR

*With the
Compliments of*

For

Quality Economy and Speed

Entrust your Civil Construction Project

To

ORIENTAL ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY

Specialists in Industrial Structures

Proprietors :


Bagla Engineering Company (P) Ltd.,

18, NETAJI SUBHAS ROAD,


CALCUTTA-700001

Gram : CIVILENG

Phone . 22-5811 (3)



फतेहपुर मन्दिर के विश्राम भवन के जीर्णोद्धार निमित्त पूजन करते हुए श्री नथमलजी सराफ एवं अन्य भक्त गण



**With Best
Compliments
From**



HIND UDYOG CORPORATION

Regd. Office :

20, MUKTARAM BABU STREET,
CALCUTTA-700 007

Head Office :

6, CLIVE ROW,
CALCUTTA-700 001.

Phone : 22-1172/8743

Cable : 'KHEMKACO'

Telex : CA 2025

Dealers in RAW JUTE & JUTE GOODS AND PAPER & PAPER BOARDS

असन्तोष पराजय का दूसरा नाम है।



"HONESTY IS OUR BEST POLICY"


Phone : 33-0325

THREE STEEL MEN

IRON & STEEL MERCHANT, COMMISSION AGENT &
GENERAL ORDER SUPPLIERS

8/1B, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,

CALCUTTA-700007




Phone 52-1234
55-6470

MIDLAND ENGINEERING WORKS

58/4, B. T. ROAD.

CALCUTTA-700 002

With best
Compliments
of



अनुभव पिक्चर्स प्रा ली

काला आदमी

दिग्दर्शक रमेश लखनपाल संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
निर्माता जी. एस. पोद्दार. के. एम. पोद्दार

RELEASING SHORTLY

*With best
Compliments of*

Phone : 22-7129
22-1044

MUNDRA & COMPANY

8, B. R. B. ROAD,
CALCUTTA-1



पूज्य "श्री दादीजी"

के


चरण कमलों में

समस्त परिवार का कोटि-कोटि प्रणाम ।

—भोलानाथ लोधा

ई४ ए, वी० के० पाल एवेन्यू,

कलकत्ता-५



GLADSTONE LYALL & CO. LTD.

1-A, JANKI SHAH ROAD,

(Hastings)

CALCUTTA-700022

Telegram : "GLADWYLL"
Telex : CA-7510 "BUCANDI"

Phone : 45-1794 (3 Lines)
45-5351

संसार की सारी सेनाएं मिलकर इतने मानधो और इतनी
सम्पत्ति को नष्ट नहीं करतीं, जितनी शराब पीने की आदत ।

"मिलटन"

*With best
Compliments of*

CALCUTTA LANDING & SHIPPING CO. LTD.

I-A, JANKI SHAH ROAD,

(Hastings)

CALCUTTA-700022

Telex : BUCANDI "CA" 7510

Phone : 45-1794 (3 Lines)

*With best
Compliments
of*

NATIONAL COMMERCIAL CORPORATION

Exporters & Dealers of Jute Goods

Office :

135, Biplabi Rash Behari Bose Road,

CALCUTTA-700001

**Phone : 22-6269
22-5057**

Guddi :

22/1, Armenian Street,

CALCUTTA-700001

**Phone : 34 6492
Gram . ALUFLANGE**



Phone : { 23-6461
23-6462
23-4643

GRAND SMITHY WORKS (P) LTD.



11, GOVERNMENT PLACE (EAST)

CALCUTTA-700 069



स्मरण रखो :—दैहिक विलास की भूख समस्त आत्मिक आदेशों की हत्या कर देती है और बाद में मृतात्मा की अन्तिम यात्रा में उपहास हेतु शमशान तक साथ देती है। "ख० जि०"

With the
Compliments of

BEEKAY INDUSTRIES

(RE-ROLLERS, FABRICATORS & ENGINEERS)

Rolling Mill : 286 & 287, G T ROAD, SALKIA,
HOWRAH - 6

Office : 7, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-72

Office : 23-4872 Factory : 66-2982



Phone : 22-7821

RAJENDRA TRADING CO.

23 A, N. S. ROAD,

(6th Floor)

CALCUTTA-700001

with

Best

Compliments

of

Gram : CLOTHIMP

Phone : Shop : 33-7705
Resl. : 32-1044

SARAF ENTERPRISES

158, JAMUNALAL BAJAJ STREET,
CALCUTTA-700007



AUTHORISED WHOLESALERS . MAFATLAL GROUP OF MILLS.

सुबह से शाम तक काम करके आदमी इतना नहीं थकता,
जितना क्रोध या चिन्ता से एक घन्टे में थक जाता है।

“जेम्स एफन”

With best
Compliments of

Phone : Fact. : 94
Resl. : 26,39

SUSHILA INDUSTRIES

Manufacturers of :

H. C. I. Pipes and Fittings, C I. Pipes and Fittings, Manhole Cover, Cisterns, Machinery Parts
General Castings, Graded & Malleable Castings, Non Ferrous Castings,
Machining & all Types of Fabrication

AT/PO. RAJGANGPUR, DIST SUNDARGARH (ORISSA)




Ranisati Metal Industries

8, BENTINCK STREET,
CALCUTTA-I

Resl. : 44-4124
44-3219

Phone : 23-1550
23-4155



**With Best
Compliments
From**



BISANI ENTERPRISES

DEALER IRON & STEEL

SPECIALIST IN C. R C SHEETS & B P. SHEETS



Head Office :

65, SEMBUDOSS STREET,

MADRAS-600 001

Phone : 24294 (Office)
44-6369 (Residance)

Branch Office :

**35A, New Bamboo Bazar Road,
BANGALORE-560 002.**

Phone : 60445 (Office)
64442 (Office)
40952 (Residance)



स्वर्ग की अच्छी तरह कद्र कर सकने के लिये आदमी के लिये
अच्छा है कि वह करीब पन्द्रह मिनट नरक में रह ले ।

‘वालटॉन’

With
Compliments
of

Phone : { 22-4884
 { 23-9452

SCROGGIE BROS (India) PVT. LTD.

2, CLIVE GHAT STREET,
CALCUTTA-700001

Authorised Distributors of :

M/S. DUNLOP INDIA LTD.

FOR VEE-BELT, CONVEYER BELTING, RUBBER BELTING,
HOSE PIPE AND ADHESIVE



Resi : 34-3165




Shop : 33-2167

BIHARI LALL SARAFF

17, NOORMAL LOHIA LANE,

CALCUTTA-7



Gram : "MALPANIKA"

Phone : 33 0236

SHREEKISHAN OMPRAKASH

(JUTE MERCHANTS & COMMISSION AGENT)

131. COTTON STREET. (2ND FLOOR)

CALCUTTA-700007

●
अतिथि-सत्कार से देवत्व प्राप्त होता है ।

With best compliments from :

FURBRIX (India)

3, RABINDRA SARANI,
LILUAH, HOWRAH

Stockist & Dealers of.


- 1) IS 6 + IS 8 Fire Bricks (All Standard Sizes)
- 2) Insulation Bricks (All Varieties)
- 3) Silliminite Bricks
- 4) Silica Bricks
- 5) Acid Proof Bricks
- 6) Fire Clay Mortar IS 6 + IS 8
- 7) Fire Cement
- 8) Ramming Mass
- 9) Fire Brick Tiles & Burnol Blocks
- 10) Magnesite Bricks

PHONE :

66-3326

&

66-4368



मातेश्वरी

के

अखण्ड ज्योति महोत्सव पर

मेरी शुभकामना

बनवारी लाल पौदार

दूरभाष • २२-०७२०
४७-७१०४



With the
Best
Compliments
of



MADAN LAL & CO.

(Iron & Steel Merchants)

**76/547, COOLIE BAZAR,
KANPUR**

Gram : 'PRATAPSONS'

Office : 66741/65568
Resl. : 7396



आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-संयम केवल यही तीन
जीवन को परम शक्ति-सम्पन्न बना देते हैं। "टैनीसन"




Phone : 23-9044

BENGAL JUTE SUPPLY CO.

(JUTE BROKER)

2. GANESH CHANDRA AVENUE,

CALCUTTA-1



Phone : 34-2859

NAHAR JUTE SUPPLY

23, RAJENDRA MULICK STREET,

CALCUTTA-7

TAXATION OF CHARITABLE AND RELIGIOUS TRUSTS

NOW IN PRESS

This is a unique book on the subject written by Sri B. K. Shroff, F. C. A., a senior Chartered Accountant who is in practice for more than two decades. The book contains abundant material which will be of immense use to its readers as a practical guide.

CONTENTS INCLUDE :

- * History of Taxing Charities in India.
- * Subject matter dealt in alphabetical order giving latest judgments on the topics
- * Table of decided cases
- ⊗ Circulars issued by CBDT.
- ⊗ Notifications
- ⊗ Extracts from I. T. Act and Rules with legislative changes.
- ⊗ Model drafts of trust deeds

An Indispensable book for all Tax Consultants, Chartered Accountants, Trustees and Persons connected with Trusts.

ANAND PRAKASHAN

23A, NETAJI SUBHAS ROAD,

3rd Floor, Room No. 15

CALCUTTA-700001

“ज्ञान का निर्माण एकान्त में होता है और चरित्र का संसार के प्रवाह में।”
“श्री गेटे”



Phone : { 22-7418, 22-4710
22-7736, 22-8751

G. KOTHARI & CO.,

JUTE BROKER & DEALER
12, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-700001

*With the
best Compliments
of*

Gram : EASTINDIA
ROURKELA-4

Phone : Office : 3628
Resl. : 3014

East India Engineering Co.

Specialist in :


Ingot Moulds & Bottom Plates for Mini Steel Plants,
Cokeoven Doors, Heavy & Medium Steel Plant Spares
and Structural Fabrication

INDUSTRIAL AREA,
ROURKELA 769004 (ORISSA)

शुभ कामनाओं

के

साथ



छ नू लाल कुन कुन वाला

१३-१७ हॉलिवुड रोड,

हांगकांग ।



परोपकार कर मको तो कोई बात नहीं, पर किमी का अपकार
कभी मत करो । 'बापू'

With
Compliments
of

Phone · 33-9351

Sarwan Kumar & Co.

(JUTE BROKERS & COMMISSION AGENT)

207, Maharshi Devendra Road,

CALCUTTA-700070



CABLE : "HYPNOTIST"
CALCUTTA

Phone : 34-6286
Private : 34-9937

R. K. TRADING CORPORATION

Exporters Importers & Mercantile Agents

P-15, NEW C I T ROAD.

CALCUTTA-73



MANGAL ENTERPRISES

EXPORTERS & PROCESSORS OF SCRAP

Dealers In Iron & Steel Products



"SHAH HOUSE"

P 34, INDIA EXCHANGE PLACE, 3RD FLOOR,


CALCUTTA-700001

Gram : FERROSCRAP

Phone : 23-6629 & 23-9783



स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकान्त का होता है,
उतना ही प्रवृत्त हुआ करता है। "द्वैगोर"



With Best
Compliments
From



SHROFF BROTHERS



GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS



7, KANULAL LANE, (Burtolla Street)
CALCUTTA-700007



Gram : TRADEYAZ

Telex : 021-2421

Phone : { 33 3475
33-4867
33-9118

मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं
रुकता, तभी वह कला के रूप में फूट पड़ता है। "रिक्तन"

स्तुति

(तर्ज—राग, मारवाड़ी तोरण)

दोहा : जगत पिता जग आत्मा, गौरी पति जग जान ।

ताहि जपत सुख उपजै, मानहु बचन प्रमान ॥

बालो ऐ सखियां चालो, हिमाचल क द्वारे राज ।

गोरा बाई को बौन्द निरखस्यां, गौरी है या कालो राज ॥

ऐसा कामण म्हारे शिव मोलै न, सोहे राज ।

शिवमोलै न सोहे ये तो, गोराबाई न मोहे राज ॥ १ ॥

बाघम्बर का वस्त्र पहने, अंग विभूति रमावे राज ।

मस्तक पर थारे चन्दा सोहे, जटा में गंग विरानै राज ।

काना में थारे कुण्डल सोहे, गल सपौं की माला राज ।

नन्दी की असवारी सोहे, त्रिशूल हाथ में भासा राज ॥ २ ॥

मांत-मांत का आया बराती, कोई लूला कोई लंगड़ा राज ।

मांत-मांत का आया बराती, कोई अंधा कोई बहरा राज ।

देखण में तो चोखा लागे, पर बोली का गूंगा राज ।

भूते प्रेत न साग ल्याया, शिव को रूप अनोखो राज ॥ ३ ॥

भाग धतूरा करे कलेवो, बिजियां खूब चढ़ावे राज ।

शिव मोले का आया बराती, पापड़ पातल खावे राज ।

आया बराती पातल न तो, पापड़ समझ कर खाव राज ।

वची वचाई सारी झूठन, बांध पोटा ले जाव राज ॥ ४ ॥

शिव मोले को रूप देखकर, सखियां पाछी भागी राज ।

सखियां यूँ कहवण लागी, बीद बढ़ो ही भूंडो राज ।

गोरा बाई तो चांद-सरीखी, बीद कठै सँ आग्यो राज ।

हाँस-हाँस कर सारी सखियां, गौराबाई न बिदावे राज ॥ ५ ॥

हाथ जोड़कर माता बोली, ई रूप न तजियो राज ।

देखण में तो चोखा लागो, वी रूप में सजियो राज ।

राज कुँवर-सा आप बण्याजी, राजा जित्या बराती राज ।

ब्रह्मा-विष्णु नाचै-गावे, आज हिमाचल नगरी राज ॥ ६ ॥

पूछो "काका मण्डली" न, यों कामण कुण कसों छ राज ।

म्हे नाही जाणा यो तो 'काकों' कामण गारो राज ।

काकै न खूब नाचास्यां, कामण ढीलां छोड़ो राज ।

नाच-कूदकर भजन गात्या शिव मोलै के आगे राज ॥ ७ ॥

With the
Compliments of

Phone : 23-3865

METAL & ALLOY INDUSTRIES



2. GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-13

卐

विश्राम में भी उद्यम की गति है।

शान्त मसुद्र की तरंगे गति हीन है।

“रविन्द्रनाथ टैगोर”

स्तुति

हरि ॐ नमः शिवाय...हरि ॐ...हरि ॐ...

तेरे जटा में गंग बिराजे साथे पे चन्दा साजे
और डम-डम डमरू बजाये ॥ १ ॥ हरि ॐ...

तेरी लीला है सबसे न्यारी, जिसे जाने दुनिया सारी ।
तेरी महिमा वरनी न जाये ॥ २ ॥ हरि ॐ...

ओ अंग विभूत रमाये, नित भांग घतूरा खाये
श्रीराम का ध्यान लगाये ॥ ३ ॥ हरि ॐ...

ये पवन तेरा गुण गाये, तेरे चरणों में शीश नवाये
गुणगान करे चित्त लाये ॥ ४ ॥ हरि ॐ...

स्तुति

ना श्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है
हनुमान के चरणों में, एक फूल चढ़ाना है ॥ १ ॥

तुम बाल समय में प्रभु, सूरज को निगल डाले
अभिमानी सुरपति के, सब दर्प मसल डाले
बजरंग हुए तब से, संसार ने जाना है ॥ २ ॥

सब दुर्ग डहा करके, जंका को जलाये तुम
सीता की खबर लाये, लक्ष्मण को बजाये तुम
प्रिय भरत सरिस तुमको, श्री राम ने माना है ॥ ३ ॥

जब राम नाम तुमने, पाया ना नगीने में
तुम चीर दिये सीना, सियाराम थे सीने में
विस्मित जग ने देखा कपि राम दीवाना है ॥ ४ ॥

हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अन्तर्यामी
ये दीन होन "चंचल", अभिमानी भझानी
तुमने जो नजर फेरी, फिर कौन ठिकाना है ॥ ५ ॥

Space Donated By

A

W

e

l

l

Wishes

गूढ़ी से बहूी बात को सरल से सरल तरीके से कहना वक्त्र
बंस्कृति का प्रमाण है।

“सरसन”

स्तुति

म्हारा बाबा हनुमान, म्हारा दाता हनुमान ।

ऐसो वर तो म्हाने दीज्यो, धरूँ तुम्हारो ध्यान ॥

बाजरे की रोटी दीज्यो, ऊपर शक्कर घो ।

ओढ़वां ने गुदड़ा दीज्यो, घणो पड़ेगो सी ॥ १ ॥

रहवा न तो हेली दीज्यो, रखवाली ने ठाकर ।

मागतोड़ा न मौत दीज्यो, सेवा कर ने चाकर ॥ २ ॥

आयूँ तो खेज दीज्यो, विच में दीज्यो वाड़ी ।

घर वाली न छोरो दीज्यो, भँस ल्याव पाडी ॥ २ ॥

दोय तो म्हाने हलिया दीज्यो, हाल दीज्यो ठाड़ी ।

दोय तो म्हाने बैल दीज्यो, बीच में दीज्यो गाड़ी ॥ ४ ॥

टावरिया सपूत दीज्यो, खट-खट खावे ।

होटा बीच वैख्या रहूँ, हुक्को भर-भर ल्यावे ॥ ५ ॥

हृदय दीज्यो जानणो जी, अख्या दीज्यो ज्योत ।

इतनी बात नहीं कगो तो, पहला दीज्यो मौत ॥ ६ ॥

दोय तो म्हाने छाली दीज्यो, दोय दीज्यो लरड़ी ।

काली भूरी दोनू दीज्यो, एक बनास्या बरड़ी ॥ ७ ॥

मन्दिर आगे तिवारो दीज्यो, दुहन घोली गाय ।

'काका मण्डल' थारी कर विनती, सुनियो हनुमत राय ॥ ८ ॥

माव दीज्यो भक्ति दीज्यो, और दीज्यो जीत,

'सती मंडल' का भगत, बाबा गावे थारा गीत ॥ ९ ॥

स्तुति

मेरी विनती सुनो हनुमान, धरूँ में ध्यान ।

पवन का प्यारा, अंजनी के जाल दुलारा ॥ १ ॥

सिर मुकुट गले फूल माला, श्री लाल लंगोटे वाला ।

थारे कुण्डल झलके कान, चन्द्र वजियारा ॥ १ ॥

शिवशंकर के अवतारी, श्रीराम के आज्ञाकारी ।

हो पवन पुत्र बलवान, तेज अतिभारा ॥ २ ॥

अहिरावण मार गिराये, लक्ष्मण के प्राण बचाये ।

श्रीराम के भक्त सुजान किया निस्तारा ॥ ३ ॥

में नाम जपूँ नित तेरा, दुख संकट हरियो मेरा ।

कहे भक्त करो कल्याण दास में थारा ॥ ४ ॥



Phone : 39 49 16

BHATIA ENTERPRISES

1st Lane, Darukhana

Bombay-400010

जब व्यक्ति में अन्तर्युद्ध शुरु हो जाता है, तब उसका कुछ मूल्य हो जाता है।
"प्रावनिग"

स्तुति



आज्या आज्या ओ वजरंगी हनुमान ।

जोवां थारी वाटहली—आज्या आज्या०—॥ टेरे ॥

राम नाम में मस्त हुवा जी, थे अंजनी का लाल ।

धी सिन्दूर भदे तन ऊपर, कसे जंगोटा लाल ।

थारा बेठ्या बेठ्या करा गुणगान-जोवां थारी—॥ १ ॥

माथे पै थारे मुकुट विराजे, गल पुष्पन की माल ।

द्वारे ऊपर नौबत बाजे, ह्वजा फरुके लाल ।

अब तो वेगा सा बचाओ म्हाने आन—जोवां थारी—॥ २ ॥

शंकट मोचन नाम आपको, भक्ता का प्रतिपाल ।

सबका दुःखड़ा दूर करो थे, आवो जल्दी चाल ।

सारी दुनियां देखेगी थारी शान-जोवां थारी—॥ ३ ॥

खोर चूरमो भोग लगावां, मेवा भर भर याल ।

सभी जना मिल ध्यान लगावां, करद्यो पक्ष में न्याल ।

थारी भक्ति को मांगा वरदान—जोवां थारी—॥ ४ ॥

याही अर्ज करे "आलुसिंह" मत कर टालम टाल ।

'मजन मंडली' की नैया ने, वेगा लेवो संभाल ।

थारी मीठी-मीठी लागे सुस्कान—जोवां थारी—॥ ५ ॥





Shree Hanuman Steel Traders

Branch :


507, GIRIRAJ
SANT TUKARAM ROAD,
BOMBAY-400009
Phone : 32 12 04



11A, JATINDRA MOHAN AVENUE,
CALCUTTA-700006,
(INDIA)
Phone : 55-9499
Gable : 'GITAMAHTYA'

IMPORTERS & STEEL STOCKISTS

जलर करो — मनुष्य मात्र के दुःख को विप-ज्वालासे जलते हुए
हृदयों में प्रेम-सुधा ढालकर उन्हें, विषशून्य, शीतल,
शान्त और मधुर बना दो और यह सब केवल
मातेश्वरी की सेवा, शक्ति और प्रेरणा मानकर करो।



स्तुति



वजरंग वाला, जपुं थारी माला, रामदूत हनुमान,
भरोसो भारी है। वजरंगवाला जपुं थारी माला ॥ ८६ ॥


लाल लंगोटे वालो तू, अंजनों माँ को लालो तू।
राम नाम मतवालो तू, भक्ता को रखवालो तू।
सालासर तेरा भवन बण्या है, सुनले पवनकुमार भरोसो भारी।

शक्ति लक्ष्मण के लागी, प्रक माँही सुद्धा भागी।
द्रोण गिरी पर्वत ल्यायो, साँचो तू है अनुरागी।
घोल संजीवन लखन पिलाये, जाग वठो चलवान-भरोसो भारी।

तूने लंका जारी रे, मारे अत्याचारी रे।
हुकम की तावेदारी रे, बाल जति ब्रह्मचारी रे।
अहिरावण की भुजा उखाड़ी, ल्यायो तू भगवान-भरोसो भारी ॥

बड़े-बड़े कारज सारे, दुष्टों को दलने वाले।
सच्ची भक्ति के बल से, घट में राम दिखा डारे।
जीर कलेजा तू दिखलाया, भगन भए भगवान-भरोसो भारी।

बल को तेरो प्रार नहीं, ना दुम सो दिखदार कोई।
शंकर जो अवतार तूही, भावो हिम्मतदार तूही।
शरण पड़े को आन उवागो, साँवर करे पुकार-भरोसो भारी ॥



V. CHHAGANLAL & CO.

17-A, Carnac Siding Road,
Bombay-400009

Phone : 32 14 48

जीवन की बहुत सी बड़ी चीजों को हम तब पहचान लेते हैं,
जब उन्हें खो देते हैं।

“शरदचन्द्र”

आरती

जय श्री धोली सती मैया, जय जगदम्बा सती जी ।
अपने भक्त जनों की दूर करें विपती ॥ जय० ॥
अवनी अनन्तर ज्योति अखण्डित मंडित चहुँकुकुम्भा ।
दुरजन दलन खड्ग की विद्युत् सम प्रतिभा ॥ जय० ॥
मरकत मणि मन्दिर अति मंजुल, शोभा लखि न परे ।
ललित ध्वजा चहुँ ओरे, कंचन कलश धरे ॥ जय० ॥
घण्टा घनन घड़ावल बाजत, शंख मृदंग घुरे ।
किन्नर गायन करते, वेद ध्वनि उचरे ॥ जय० ॥
सप्त मातृका करें आरती, सुरगण ध्यान धरे ।
विविध प्रकार के व्यंजन, श्रीफल भेंट धरे ॥ जय० ॥
संकट विकट विदारिणी, नाशनी हो कुमति ।
सेवकजनहृदि पटले, मृदुल करन सुमति ॥ जय० ॥
अमल कमल दल लोचनी, मोचनी त्रय तापा ।
दास आयो शरण आपकी लाज रखो माता ॥ जय० ॥
श्री धोलीसती मैयाजी की आरती जो कोई नर गावे ।
सदन सिद्धि नवनिधि मनवांछित फल पावे ॥ जय० ॥



Phone : 32 53 70



MAHENDRAKUMAR SURENDRAKUMAR



52, BARODA STREET,
BOMBAY-400009



घोने से कायले की काखिख नही छूटती, वसे तो आग में
जलाना पड़ता है।

“शरदुचन्द्र”

With the
Compliments
of



Phone : 22-6228

J. D. JONES & CO. LTD.

C/5, GILLANDER HOUSE,

(Third Floor)

CALCUTTA-700001



जिस जाति या समाज में अनुशासन है वहाँ मनुष्य संख्या में थोड़े होते हुए भी बड़े-बड़े कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं।



DALCHAND MANAKCHAND
DIPCHAND MANICKCHAND

173, MAHATMA GANDHI ROAD,

CALCUTTA-700007



Telegram : PUSPAKRATH

Phone : 33-6378

GUPTA AND COMPANY

20/1, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,

CALCUTTA-7



मादव अमावस्या के मेले पर मन्दिर प्रांगण में उपस्थित मत्त-गण



The Ganges Printing Company Limited

9, OLD POST OFFICE STREET,

CALCUTTA-700 001

Phone : 23-3221
23-9787

Telex : KCL CA 2187

Quality Printers in Letter-Press, Photo-offset,
Flexography, Silk-Screen and Colour Depositing
Process



मुझे ज्यादा पसन्द है कि लोग मुझे सीख देते हुए मुझ पर हंसे
वजाय इसके कि वे मुझे कुछ भी लाभ पहुंचाए बिना मेरी
प्रशंसा करे। "गेटे"

With
Compliments
of

Gram : CONTISALE

Phone : 22-4266

CONTINENTAL SALES AGENCIES

Suppliers of Non-Ferrous, Iron & Steel, Electric Items &

Refractory Materials etc

16. INDIA EXCHANGE PLACE.

Room No 20 (2nd Floor)

CALCUTTA-700001

With
the
Compliments
of

R A W A T S O N S

Manufacturers of Railway Track Materials &

General Hardware Stores

23A, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700001

Gram . RICHASTAHL
Tel. 021-2125

Phone : Office . 22-0340
Resl. . 35-5926

With best compliments from :

Enjoy Great Adventure with your Children

Classified as Educational as well as Children's Film by Central Board of Film Censors

Certified by Union Education Minister, DR. P. C CHUNDER as— "it deals with the adventures of a boy in a jungle and his friendship with a white elephant. The film has several tense moments which sustain interest till the climax. It teaches people to live in harmony with nature. I hope the film will be able to impress both children and adults."

The Film is Most Educative and Entertaining

TAPAN SINHA'S

SAFED

HAATHI

(White Elephant)

IN HINDI * EASTMANCOLOR



Music—RAVINDRA JAIN Produced by—R A JALAN and PRATAP AGRAWAL

a NEEL KAMAL MOVIES' PRESENTATION

● RELEASING SHORTLY ●

N.B.—L. P. Records of "SAFED HAATHI" Now on Sale , Price Rs. 28/-.

With
Compliments
of

Phone : 24-4872
24-0804

STEELWYN CORPORATION

Manufacturers of :

Steel Windows & Specialise in Fabrication Jobs

41, CHOWRINGHEE ROAD,

(Kanak Building)

CALCUTTA-700016




Phone : 2841

MAHENDRA TRADING CO.

SCHOOL PARA.

RANIGUNGE.



With the
Best
Compliments
of

KAMLA DEVI SARAF CHARITABLE TRUST

21/1, JITENDRA MOHAN AVENUE,

CALCUTTA-6



Phone : 55-7147



“सात्विक त्याग सच्चा त्याग है जिसमें फल की प्राप्ति के प्रति
आसक्ति न हो और निष्काम भावना से कार्य करता रहे—
सच्चा त्याग है।”

*With best
Compliments
of*

AMAR BHARAT TEXTILES

Manufacturers of : DHOTI, SAREE, MARKIN ETC.

Office : 19, SYNAGOGUE STREET, (2nd Floor)
CALCUTTA-1

Phone : 22-9980

Gram : INDOCLOTH

Factory : 3, COSSIPORE ROAD,
CALCUTTA-2

Phone : 56-2057

Resl. : 45-5663



BEEKAY PETROLEUM CO. (P) LTD.

87B, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-700073

Dealers & Manufacturers of :

VARIOUS TYPES OF PETROLEUM PRODUCTS



PHONE : 22-8115

Calcutta Iron & Engineering Co. (P.) Ltd.

109-A/1A, CANNING STREET,

CALCUTTA-700001



दिए गए विवरण के बिना ही काम हो तो हमें लिखकर ही
बिचारी से पढ़ने ।

1972 ई.स.

WITH
BEST
COMPLIMENTS
OF

Phone : 33-1333

JAIN JUTE TRADING CO.

166, Mahatma Gandhi Road,

CALCUTTA-700007



Phone : 66-5213
66-3057

J. D. CASTING & FORGING (P) LTD.

53, DR. ABANI DUTTA ROAD,
HOWRAH

*There Hides a Pleasantry Flower in Namring Upper.
How Does It Come Out? It Just Needs a Thrilling
Chew of a Cup of Tea Derived From Namring Upper.*

HAVE A CUP OF NAMRING TEA !!
PLUCK THE PLEASATRY FLOWER !!
BE CHEERFUL ALWAYS !!!



hmp

Darjeeling Tea & Chinchona Association Ltd.

**Owners of Namring, Namring (Upeer), Jinglam and
Poomong Tea Estates.**

4, FAIRLIE PLACE,

CALCUTTA-700001

Telephone :

Gram :

Telex :

22-9965/66

"DARINTEAEX"

PODDAR CA-3297

कर्म के बिना विचार गर्भपात के समान है, ओर विचार के
बिना कर्म निपट मूर्खता ।
"जवाहरलाल नेहरु"

अखण्ड ज्योति महोत्सव पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ :



विनोद कुमार प्रमोद कुमार

२१०/२१२, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट

कलकत्ता-७०० ००७



सहयोगी संस्थान

बीना टैक्सटाइल्स

कपड़े के खुदरा तथा थोक व्यापारी

२०१ बी, महात्मा गांधी रोड

कलकत्ता-७०० ००७

*With best
Compliments of*

S. GANGULY

8/3, Thakurdass Dutta 1st Lane,

KADAMTALA

HOWRAH - I

*With
Compliments
of*

SITARAM SARAF

KAVERI AGENCIES

16, India Exchange Place,

CALCUTTA-700001

Phone : 23-8589



Sudarshan Electronics Corpn.



18, RAWDON STREET,



CALCUTTA-700017



विजय निश्चित हो तो कोई भी वुजदिल लड़ सकता है, मगर मुझे ऐसा आदमी बताओ जो पराजय निश्चित होने पर भी लड़ने का पराक्रम दिखलाता है।

“डलियट”



Phone : 22-0691

PIONEER METAL WORKS

Manufacturers of :

"CHARKA BRAND" Aluminium Utensils.

Factory :

12, DUFFER STREET,
Lillooah, HOWRAH.

Office :

40, STRAND ROAD,
CALCUTTA-I

With best compliments of :

Alexander Moody & Co. (P) Ltd.

P-21/22, Radha Bazar Street,
CALCUTTA-I

Phone : 22-8221 (3 Lines)


*With the
Compliments of*

INDIAN

METAL

INDUSTRIES

113-A, MANOHARDAS KATRA,
CALCUTTA-700007



Phone : 22-4180

SHREERAM ENTERPRISES

116, B. R. B. B ROAD,
CALCUTTA-700001



AUTHORISED DEALER FOR :

"LAXMI-48 SCOOTERETTE"

शरीर वीणा है और आनन्द संगीत। यह मरुरी है कि यंत्र
दुरुस्त रहे। "बीजर"




Gram : "SUHASARIA"

Phone : 33-2040

NATIONAL FUELS

26. BURTOLLA STREET,
CALCUTTA-7



Office : 22-0753/22-1131.

Ramchandra Satyanarain

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,
(10th, Floor, Room No. 1)
CALCUTTA-700001



MAHADEOLAL TULSIAN

110/1, AMHERST STREET,

CALCUTTA-9



Phone : 34-1859
34-9183

M/s. Calcutta Hardware Stores

“किसी भी बात को छोटी समझ कर माहू मार देना यदि
मूर्खता नहीं तो बुद्धिमानी भी नहीं हो सकती।”

“अविनाश”



SAJJAN KUMAR SARAF
(STOCK & SHARE BROKERS)
7. LYONS RANGE,
CALCUTTA-700001

Telex : CAL 2836

Office : 22-3130
 22-6130
Resi : 54-4184



A

Well

Wisher

*With
Best
Compliments
of*

TEXTILE BROKERS



39-A, ARMENIAN STREET,



CALCUTTA



तुम्हें स्वामी की भाँति कार्य करना चाहिये, - न कि दास की तरह; अविराम कर्म करो, पर दास की तरह नहीं।

“विवेकानन्द”

With Best
Compliments Of

Gram : "Satyadau"

Phone : { 22-7026
22-5771
22-4459
Factory : 57-3151

STEEL CONSTRUCTION COMPANY

STRUCTURAL ENGINEERS & CONTRACTORS

Fabricators of Building Structural & Factory Sheds, Manufacturers of
Agricultural Tools, Pipe & Pipefittings, Steel Gates, Windows,
Tanks, Towers & Specialities in Other Job Works

Works :

17, THE MALL, DUM DUM
24-PARGANAS

Office :

138, CANNING STREET
CALCUTTA-700001

हमारी शुभकामना सहित :

दि इस्टन मैनुफैक्चरिंग कं० लि०

कनोई उद्योग

दि गिल्लापुरो टी एण्ड सीड कं० लि०

श्री महामाया इन्वेस्टमेन्ट प्रा० लि०

श्रीहनुमानवक्स ज्वालाप्रसाद एण्ड सन्स

पंजीकृत कार्यालय :

६, ब्रेवोर्न रोड, कलकत्ता-१


टेलीफोन - २२-८३०१ (६ लाइन) तार - गिसलेड

श्री महामाया माइनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड


एम-७ भवानी सिंह मार्ग, 'सी' स्कीम

जयपुर

टेलीफोन : ६६-६६६



AMBADUTT & CO.



21-A, BIPLABI RASH BEHARI, BASU ROAD,
CALCUTTA-700001



Resi : 33 3474

Office : 22-4287
22-3137



समुद्र की लहरों को हमारे बीच वियोग की दिवार खड़ी न
करने दो, और बीते हुए नालों को जो तुमने हमारे साथ व्यतीत
क्रिया है, केवल स्मृति-विषय न बनाओ। "ख० जि०"

With best compliments of :

FOR QUALITY, DURABILITY & STRENGTH
INSIST ON
KONARK CEMENT
'EVEREST' ASBESTOS SHEETS & ALLIED PRODUCTS

PLEASE CONTACT

VISHNU AGENCIES PRIVATE LIMITED

Manufacturers :

R. C. C. SPUN PIPES

Regd. Office · BHARAT BHAWAN

3, CHITTARANJAN AVENUE,

CALCUTTA-700 002

Gram : VISAGELIM

Phone : 23-9011 (4 Lines)

With best compliments from :

Resj. : 23-8153

RADHESHYAM DHANUKA

(GEM & JEWELLERY CONSULTANT)

VALUER APPOINTED BY GOVERNMENT OF INDIA

PARTNER

FIRM

SHANKARLAL BUDHMAL & COMPANY

H. Office :

401/11 A, Upper Chitpur Road.

CALCUTTA-7

Phone : 33-2406
33-2159

Branch :

100, Old Hanuman Lane,


KALBADEVI ROAD,

BOMBAY-2

Resj. : 38 21 43



Dhananjay Chemical Corporation



9, LALL BAZAR STREET,

(2nd Floor)

CALCUTTA-700001



“सत्य इसलिये नहीं गेला जाता है कि उससे चार आने पैसे
मिलेंगे बल्कि इसलिये कि उसमें आनन्द आता है।”

With Best
Compliments Of

ATMARAM SUSHIL KUMAR

Timber Merchants,
Specialist in ALL SORTS OF NORTH-BENGAL WOOD
187, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-6
Phone : 33 4696

WITH
BEST
COMPLIMENTS
OF

MADRAS RUBBER FACTORY LTD.

Regd. Office : MADRAS-600 002



Manufacturers of :
'MRF'—MANSFIELD TYRES



4. JUSTICE DWARKA NATH ROAD,
CALCUTTA-20



Telegram : 'SOLELY' CALCUTTA

Telex : 021-3185/ANDMET

Anand Metal & Steel Works

Factory :

60, SURYA SEN ROAD,
ALAMBAZAR,
CALCUTTA-700035

Phone : 52-2810
52-4677



Office :


23, BRABOURNE ROAD,
Post Box No. 2615
CALCUTTA-700001

Phone : 22-0315/16
22-9476

MANUFACTURERS * EXPORTERS & IMPORTERS

फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिये मत ठहरो, आगे बढ़े चलो;
तुम्हारे पथ पर निरन्तर फूल खिलते रहेंगे।

“रविन्द्रनाथ टैगोर”



With the
Best
Compliments
of

Star Iron Works Private Limited.



CALCUTTA



जो अपने आराम, अपने खुन, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा
दूसरों के भले के लिये नहीं देता—वह कैगाल, कठोर व
कमीना है।

“जोनावेली”

* पुष्पांजलि *

सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थसाधिके ।
 शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ।
 सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनि ।
 गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोऽस्तुते ॥
 शरणागत - दीनार्त परित्राण परायणे ।
 सर्वस्यार्ति हरेदेवी, नारायणी नमोऽस्तुते ॥
 जयन्ती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी ।
 दुर्गा क्षमा शिवाघात्री, स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ।
 त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
 त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः ॥
 चन्द्र तपै सूरज तपै, रद्गण तपै आकाश ।
 इन सबसे बढ़कर तपै, सत्तियों का सुप्रकाश ॥
 जय जय श्री धोली सती, सत्य पुँज आधार ।
 चरण कमल धरि ध्यान में, प्रणवहुँ बारम्बार ॥
 मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय ।
 तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोय ॥
 मैया सब कुछ मांगल्यो, जो कुछ मेरे पास ।
 दो नैना मत मागियो, म्हाने थारे दरश की आस ॥
 सेवा, पूजा, बन्दगी, सभी आपके हाथ ।
 मैं तो कछु जानूँ नहीं, आप जानो मेरी मात ॥
 जगदम्बा जग-तारणी, धोली सती मेरी मात ।
 भूल चूक सब माफ कर, रखियो सिर पर हाथ ॥
 बैल चढे शंकर मिले, गुरुड़ चढे भगवान ।
 सिंह चढे दादी मिले, हो सबका कल्याण ॥
 सुमन सुगन्धित सुमन ले, सुमन सुबुद्धि सुधार ।
 पुष्पांजलि अर्पित करूँ, हे मात करो स्वीकार ॥

—

卐 श्री श्री धोली सती दादोजी की जय 卐

*With Best
Compliments Of*

Phones : 23-7383 & 23-8064

Huldibari Tea Association Ltd.

**5 & 7, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001**

*ALWAYS DRINK
HULDIBARI TEA
For
Improving Your Mind
Strengthening Your Heart and
Relaxing Your Body.*

*FRESH TEA FROM THE GARDEN
"SONALI" & "SUGANDHA"*

DISTRIBUTION CENTRES AT :

Tea Traders India

20A, Girish Ch Bose Road,
CALCUTTA-700014

Mahatma & Sons

卐 Room No. G-6, Bagree Market,
CALCUTTA-700001

शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होनी चाहिये । न्याय का विरोध करने
वाली दया, दया नहीं बल्कि क्रूरता है । "महात्मा गांधी"



Always
Drink
Garden
Fresh
Tea

GOPAL KRISHNA TEA CO.

Head Office :

MARWARI PATTY
P. O JORHAT (ASSAM)
Phone : 122

Branch Office :

76, JAMUNALAL BAZAZ STREET,
CALCUTTA-7
Phone : 33-5648

GOPAL KRISHNA TEA ESTATE

P. O KILLING VALLEY
DIST. NOWGONG (ASSAM)



सबको हाथ की पाँच ऊँगलियों की तरह रहना चाहिये, ये हैं
तो पाँच लेकिन काम सहजों का कर लेती है; क्योंकि इनमें
एकता है। "विनोवा भावे"



Maheswary Import & Export Private Ltd.

(APPROVED STOCKISTS FOR IRON & STEEL)

Regd Office :

4, DIGAMBAR JAIN TEMPLE ROAD,
CALCUTTA-7

Gram : DORWIN

Phone : { 33-4973
33-5258



BRANCHES :-

JAIPUR

KHETAN BHAWAN
M. I ROAD,
JAIPUR (Rajasthan)
Phone : 73923

BHARATPUR

NEW MANDI
BHARATPUR
Phone : 364


DELHI

H-3494, HIRA MARKET
CHAWARI BAZAR,
DELHI-6
Phone : 261472



वचन न्यक्ति शब्दों में सुस्त और चरित्र में सुस्त होता है।

“कल्पयुशियस”



With the
Best
Compliments
of

Shree Shanker Oil & Flour Mills


UPPER BAZAR
P.O. RANCHI
(BIHAR)




MANUFACTURERS OF PURE VEGETABLE
OILS & OIL CAKES



तर्क करते समय शान्त रहिए, क्योकि भयानकता गलती को
अपराध बना देती है और सत्य को बतहजीवी। "हरवर्त"





भादव अमावस के मेले पर फतेहपुर मन्दिर में श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल
एवं श्रीमती विद्या देवी अग्रवाल के साथ मन्दिर कमेटी के सदस्यगण

**MOTILAL
OMPRAKASH**

*with
the
compliments
of*

**131-132, INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA,
JAIPUR - 302012.**

Works : 84280
PHONE : Off. : 84356
Resl : 73118



Mfg. :— Ghamellas, Buckets, Auto Comonents viz Scooter Parts Etc.
Agricultural Implements, S. S. Goods, Electrical Goods,
and all Sorts of Special Type of Sheet Metal Press Work.



जिन भारों को मनुष्य सहन कर सकता है उनमें मूर्ख की बात
को सुनना और सहना सबसे कठिन है। "स्पेंसर"

with
 the
 compliments
 of

JITOM

OMPRAKASHI

BHIM SAIN VAISHNAV HOTEL

(A VEGETARIAN PARADISE)

84280	Works	PHONE
84250	Dist	
7318	Rel	

1, SAMBHU MULLICK LANE,
(BURRA BAZAR)

CALCUTTA-700007

Mfg. - Chancellors Buckle Auto Components viz Scooter parts Etc

PHONE 33-7143
Agricultural Implements & Goods Electrical Goods

and all types of sheet metal Press Work

OUTSIDE CATERING IS OUR SPECIALITY



किसी भी अनुषंग के विषय में हमको सूचना के पूर्व कोई राय
 निर्दिष्ट मत करो।

With the
Compliments of

TRIMURTI



12, JAWAHARLAL NEHRU ROAD,
CALCUTTA-13



Phone : 22-1282/83



संसार से सबसे दयनीय कौन है ? जो धनवान होकर भी
कंजूस है। "विद्यापति"

with
Best
Compliments
of

Phone : 22-4006 (4 Lines)

W. F. DUCAT & CO. (P) LTD.,




(JUTE BROKERS)

5, CLIVE ROW,
CALCUTTA-1



सादगी कुदरत का पहला कदम है, और कला का अखिरी

“बेसी”



The Ellenbarrie Tea Company Ltd.



GARDENS ELLENBARRIE TEA ESTATE P. O. BAGRAKOT DIST JALPAIGURI
FAGU TEA ESTATE P O FAGU DIST DARJEELING



Cable : Thikhay Calcutta-5

55 7233, 55 7234

Phones : 55 7235, 55 9353

55 1266, 54 1755


Regd Office :

50, JATINDRA MOHAN AVENUE,

CALCUTTA-700005

INDIA

यदि तुम किसी को यह विश्वास दिलाना चाहते हो कि वह
गलती पर है, तो सब्बाई को करके दिखलाओ। "धोरो"



Orient General Industries Ltd.

**6, GHORE BIBI LANE,
CALCUTTA-700054**

Manufacturers of 'ORIENT' FANS



मृत्यु वह सोने की चाबी है जो अमरत्व के भवन को खोल
देती है। "मिल्टन"

With
Compliments
of

Shree Bajrang Oil
&
Dall Mills

UPPER BAZAR
P O RANCHI
(BIHAR)

Phone : { 23915
 { 23916



Manufacturers of :
PURE VEGETABLE OILS



कोई खबरुक पैसा मागे हुजा जो अपना मजान घन्ट मर
रखा हो । "मोजन"

With the
Compliments of

Shanti Kumar P. Merchant



“GEETA BHAWAN”, ‘B’ Bldg.
5th Floor, Block No 46



93, BHULABHAI DESAI ROAD,
BOMBAY-26
Phone . 38-1666



ओ कुल्ल में नहीं जानता उसके विषय में अपनी अज्ञानता
स्वीकार करने में मुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती ।

“सिसरो”

With the
Compliments of

Purushottam Das Bagrodia & Co.



H. O. :

54/5A, STRAND ROAD,

CALCUTTA-700006

Phone : 33-9736

Adm. Office :

7, RABINDRA SARANI,

CALCUTTA-700001

Phone : 22-0180



घन खाद्य की तरह है, जब तक फैलाया न जाय, बहुत कम
उपयोगी है। 'वेकन'

*With
Great
Compliments
Of*

Messrs. Bengal Auto Industries




95/1/3A, COSSIPORE ROAD,
CALCUTTA-700002

Manufacturers of : AUTOMOBILES PARTS

रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद ज्ञान के ब्रह्म से साक्षात्कार
अधिक सरल हो जाता है।
“राधा कृष्ण”



**BASANTLAL GOURISANKER
HIMATSINGKA
CHARITABLE TRUST**



14/1, CLIVE ROW,
CALCUTTA-1



ऐसा विचार करके दु खी न हो कि विधाता का लिखा हुआ
नहीं मिट सकता । "वाल्मीकि"



Phone : 22-0821

P. K. BAGLA & CO.



(JUTE BROKERS)



**6, CLIVE ROW,
CALCUTTA**



बुरा आदमी उस वक्त बदतर हो जाता है जब वह साधु होने का
दोंग करता है। 'बेकन'



Phone : 33 88 96

Purushotam Chirawawala & Co.



511, 'GIRIRAJ'

SANT TUKARAM ROAD,

BOMBAY-400009

जिसके पास अपनी शक्ति नहीं उसे भगवान भी शक्ति नहीं
देता । शक्ति आत्मा के अन्दर से आती है, बाहर से नहीं ।

“सुदर्शन”



Gram : BHARAT

Offi : 38

Resi : 20

BHARAT ENGINEERING & MANUFACTURING COMPANY

P. O CHAKULIA,
DIST SINGHBHUM,
(BIHAR)



Jamshedpur Office :


GAJRAJ MANSION,
BISTUPUR, JAMSHEDPUR
Phone . 6871



ALL TYPES OF FERROUS & NON-FERROUS CASTINGS
AS PER DRAWINGS AND SPECIFICATIONS RANGING
FROM 10 GRAMS TO 10 TONS EACH



नागी सब कुछ कर सकती है लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम
नहीं कर सकती ।
"सुदर्शन"



Industrial Steels Corporation

40, STRAND ROAD,

Room No. 15 & 31

CALCUTTA



Phone : Offi : 22-1330, 22-6337
Resl : 45-5068, 45-2836



खतरे से खाली कोई जगह नहीं है। हर जगह सृजन को
दुर्जन मिल ही जाता है। 'मिल्टन'

*With
best Compliments
of*

ASSOCIATED STEEL ENTERPRISES

Specialists in B P & C R C SHEETS

*Dealers in Iron & Steel Commission Agent &
General order Suppliers*

Reqd. Office :

26, Upper Chitpur Road,

CALCUTTA-700007

*Resi : 35-4038
33-7129*

Sales Office ,

207, Maharshi Debendra Road,

Room No 128

CALCUTTA-700070

*Office : 33-3219
32-6160*

*With
Compliments
of*

NARENDRA KUMAR & CO.



A/MAFATLAL GROUP DEALER

13, NURMULL LOHIA LANE,

CALCUTTA-7

With
Compliments
of

Prabhat Carrying Corporation



3, NAWAB BADRUDDIN STREET,
CALCUTTA-73



Phone : 34-6656 & 34-4597



वह सबसे अधिक जीता है जो सबसे अधिक सोचता है,
उत्कृष्टतम भावनाएं रखता है, सर्वोत्तम रीति से कार्य करता है।

“धैर्य”



Phone : { Shop : 22-3215
 { Shop : 22-4463
 { Resi : 44-8099

Bajranglal Arunkumar

Stockists of : IRON STEEL, BOLTS & NUTS ETC,


40, STRAND ROAD,

Shop No. 5, (Ground Floor)


CALCUTTA-700001



समुन्दरों से बड़ी एक चीज है आकाश । आकाश से बड़ी एक
चीज है—मनुष्य की आत्मा ।
“विकटर हू गो”



With Best
Compliments
From



RAMANAND PRAMODKUMAR

A-7, Lohmandi Naraina

NEW-DELHI

KHEMKA TRADING CO.

UPPER BAZAR

P O RANCHI

DAORAH ROAD

Phone : 2094

Phone : 2094

Manufacturers & Dealers of

ALL KINDS OF VEGETABLE OILS & GASSES



इस विषय में हमारा विचार है कि इसी-समय के महान व्यक्ति अकस्मिच ही विद्वान नहीं रहते, और न ही वे विद्वान महान व्यक्ति हुए हैं।

*With best
Compliments of*

PAWANKUMAR PRAMODKUMAR

Y - 7, LOHAMANDI, NARAINA

NEW - DELHI

Shop : 581313
PHONE : Resl. : 226862
228552



Factory · NEW - ROHTAK ROAD

GALI No 4

Phone : 566979



MANUFACTURER OF SUGAR CUM BUILDING
PANS COLD BASED FIRST TIME IN INDIA



वह मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है जो क्रोध की हालत में भी बुरी
वात मुँह से नहीं निकालता । "सादी"

*With best
Compliments of*

We are pleased to announce that we have started a Steel processing Centre at the addresses given below where we offer modern facilities for —

Decoiling, levelling and shearing of HR Plates in coils

Decoiling, levelling and shearing of HR/CR Sheets in coils

Decoiling, levelling and shearing of BP/TP/Aluminium Sheets in coils

Decoiling, straightening and cutting to size of wire rods for
export — 6mm to 10mm

Slitting of CR Sheets/Coils

Sorting and slitting of Tinplate W W.

Straightening of cobbled steel rounds.

Twisting of Deformed Steel Bars for producing Torsteel/Tiscon

The facilities include Truck weigh bridge and loading and unloading of coils upto 10/12M/T each by overhead crane

Please contact at site by rail or personal telephone

Hermes Industries Corporation

FALCON STEEL CORPORATION

1) 12A/B, Bakhtawar,
Plot No 229 { 23-1809
Nariman Point, { 23-1871
BOMBAY 21 { 23-3084

I, OIL INSTALLATION ROAD,

CALCUTTA-700043

Phone : 45-1398

2) Tinmill Compound,
Kalwa, { 49-2411
Thana, { 49-4478
BOMBAY

PROPRIETOR : ASHOKKUMAR

A, TRADITION OF TRUST

ख्याति वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती । अगस्त्य ऋषि की
तरह वह सागर को पीकर भी शान्त नहीं होती । "प्रेसचन्द"




Phone : 66-4282

E. K. Steel (P) Ltd.



MANUFACTURERS & ENGINEERS.



65/1, G. T. ROAD,
LILUAH (HOWRAH)



किसी भी हालत में अपनी ताकत पर घमण्ड न करो। यह
बहुरूपिया आसमान हर घड़ी हजारों रंग बदलता है।

“हाफिज़”



Tele Add. : "PATCHALAN"

Phone : 33-6041
32-5683

JANKIDAS BANSHIDHAR

General Merchants & Commission Agents



26/4, ARMENIAN STREET,
CALCUTTA-1

हमारा उद्देश्य है संसार का भला करना, न कि अपने नाम का
ठोस पीटना। "विवेकानन्द"

With best compliments of :

Gram : "QUICKEXPO"

Office : 33-3319
Resl. : 44-0570

BHAGIRATH AGARWAL & SONS

RICE MILLER, FEED SUPPLIERS, GENERAL
MERCHANTS & COMMISSION AGENTS



Sister Concern

FOOD—O—FEED

Mill :

P. O. CHANDBALI
Dt. BALASORE (ORISSA)
Phone : 29



16, TARACHAND DUTT STREET,
CALCUTTA-700073

*With
the
Compliments
of*


Shree Krishna Trade Enterprise

113-A, Manohardas Street,
(1st Floor)
CALCUTT-700007

*with the
best Compliments
of*

National Razors & Blades Pvt. Ltd

51, Stephen House,
(3rd Floor)
CALCUTTA-1
Phone : 23-5412



मादव अमावस के मेले पर उपस्थित कुछ मक्त गण

THE
PLUS POINTS
OF

POLAR

FANS

ARE REFLECTED ON THE USERS' FACE.

- ★ Elegant in design
- ★ Double ball bearings.
- ★ Technical excellence.
- ★ Reliability
- ★ Overall economic
- ★ Aluminium blades contoured for large air displacement

We are so certain about all these that we confidently stand a guarantee of 7 years for each and every POLAR FAN

MANUFACTURED BY **POLAR FAN INDUSTRIES**
HEAD OFFICE 51, EZRA STREET, CALCUTTA 700 001 PHONE 34-3323, 34-8405
BRANCHES AT VARANASI, KANPUR, NEW DELHI.

*With best
Compliments
of*

Phone : 23 6735

Gauri Shankar Birendra Kumar

IRON & STEEL MERCHANTS AND ORDER SUPPLIERS
23-A, Netaji Subhas Road,
(10th floor, Room No. 25)
CALCUTTA-700001

*With the
best Compliments
of*

SHOREWALA BROTHERS

Manufacturers Representatives

IMPORTERS & EXPORTERS

Branch Office :

67, MIRZA STREET, 1ST FLOOR:

BOMBAY-400003.

Phones : { Delhi Off 528546
Bombay Res. 527534
326798

Gram . CHARBHAI (Delhi)


4540, Cloth Market,

Delhi-110006

SHEWPRASAD

*with
the
compliments
of*

FULCHAND



P O. JHARIA
DHANBAD

॥

एक पथिक की भांति जीवन के राही को भी अपना लक्ष्य
अवश्य निश्चित कर लेना चाहिये । पर लक्ष्य का निश्चय बुद्धि
पूर्वक हो, साथ ही सामर्थ्य के परे न हो । "मिलनर"

With the
Compliments of

CASTINGS (INDIA) INC.,
PLOT NO. 29, IV R PHASE
ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA,
P O. GAMHARIA,
Dist SINGHBHUME,
JAMSHEDPUR
(BIHAR)

With
the
Compliments
of

Phone : 22-8611

TRADE CORPORATION


25, STRAND ROAD.
(ROOM No. 456)

'MARSHALL-HOUSE'

CALCUTTA-700001



DEALERS IN ALL SORTS OF JUTE,
TEXTILES AND ENGINEERING STORES.



Phone : Office : 33-1736
Resl. : 55-5951

Rawatmal Dewaki Nandan Saraogi



(Metal Merchant and Commission Agent)



157, NETAJI SUBHAS ROAD,
1st Floor, Room No. 90
CALCUTTA-700001

नगर में घर बनाने से पहले वन के एकान्त में अपने मन की
पूर्ण कृती बनाओ । "ख० लि०"

With best
Compliments
of

DECOILING PLANT

OF

NARAYAN FURNITURE MFG. CO. (P) LTD.

AT

M/s. BHARAT BARREL & DRUM MFG. CO. (P) LTD.

5, KALIPRASANNA SINGHEE ROAD,

COSSIPORE, CALCUTTA-700 002

Phones : 52-6132
52-7132

With best
Compliments of

Gram : SHIWSTEEL (CAL)

Telephone : Office . 35-4570
Resl : 35 8269

ANAND IRON & STEEL CO.

CONTROLLED STOCKIST

APPOINTED BY THE GOVT OF INDIA

Dealers in : ALL KINDS OF IRON & STEEL MATERIALS

58, KAILASH BOSE STREET,

CALCUTTA-700 006



hmp

Silonibari Tea Company, Limited

Owners : SILONIBARI TEA ESTATE.

*Manufacturers and Exporters of Quality
ASSAM ORTHODOX & CTC TEAS.*

4, FAIRLIE PLACE,

CALCUTTA-700001

Telephone :
22-9965/66

Gram :
"DARINTEAEX"

Telex :
PODDAR CA-3297

अब कोई सही काम कर रहा हो तो उसे पता तक नहीं लगता
कि वह क्या कर रहा है, लेकिन गलत काम का उसे हमेशा
मान रहता है।

'गेटे'



माँ श्री धोली सती दादीजी

के चरणों में

कोटि - कोटि प्रणाम

रामनिरंजन वजाज

५४/५ए, स्ट्राण्ड रोड,

कलकत्ता-६

दूरभाष : ३३-८५२७



मातेश्वरी के

अखण्ड-ज्योति महोत्सव पर

हमारी शुभकामना

रामेश्वरलाल धानुका

६८, काँटन स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

With the
Compliments
of

Phone : 34-6696
34-0094

NEW INDIAN ROADWAYS

Head Office :

155C, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-7



Booking & Delivery Office :

32A, Debendra Mullick Street,
CALCUTTA-12

Phone : 34-3551

मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का महा-
मानव होना उसका चमत्कार है, और मानव का मानव होना
उसकी विजय है।

‘राधाकृष्णन्’

With
Compliments
of

Phone : 33-3714
33-4603

AGARWAL IRON TRADING CO.

19, MAHARSHI DEVENDRA ROAD,

CALCUTTA-700007




TIKMANI STEEL TRADING CO.

20, MAHARSHI DEVENDRA ROAD,

CALCUTTA-700 007

Office : 33-9905
33-4820

Resi : 45-0585




Daily Services to :
Bareilly, Bombay, Delhi, Gauhati,
Indore, Jalpur Jorhat, Kanpur,
Kota, Madras & Sibsagar

Phones { 33-5535
Offi. : 33-2474
33-9024
Resl. : 33-9016

Shanti Roadways

TRANSPORT CONTRACTORS
TRUCK-FLEET OWNERS & COMMISSION AGENTS
RAILWAY FREIGHT FORWARDERS



Head Office .

5. NAWAB LANE,
CALCUTTA-7

केवल मूर्ख और मृतक ये दो ही अपने विचारों को कमी नहीं
बदलते । 'जावेद'

*With the
Compliments of*

Phone : 32-3657

RAMKUMAR-BANWARILAL

Timber Merchants & Order Suppliers

67/16, STRAND ROAD,

CALCUTTA-700006



NATIONAL CONTAINER

127-A, A P C. ROAD,

CALCUTTA-6



With the
Best Compliments
of

WHY TO MOVE AROUND SO MANY PLACES FOR:

1. Orient Fan
2. Khaitan Fan and Guysers
3. Ranjan Fan with Exhaust and Air Circulators
4. Rallis Fan
5. Cinni Fan and Tullu Pumps AC/DC
6. Elite domestic appliances AC/DC
7. LEI Industrial Light fittings
8. Presco Cookers

VISIT

Phone : 34-4557

INDUSCO ELECTRIC COMPANY

(Fully Airconditioned)

18, RABINDRA SARANI, (Poddar Court)

CALCUTTA-700001

जिस तरह आग, आग को समाप्त नहीं कर सकती ; वसी तरह
पाप, पाप का शमन नहीं कर सकता ।

“टाइल्टाय”

“JAI MA DHOLI SATI JI”

Our Heartiest Congratulation to :
SHRI DHOLI SATIJI MANDIR COMMITTEE

Kali Charan Shroff

With best compliments of :

Shree Sati Plastic Works

Manufacturers & order Suppliers of .

All kinds of Plastic & Alkathine Toys

8, Amartolla Street,

2nd Floor, Room No. 210

CALCUTTA-700001

Phone : 34-0973



Shree Sati Plastic Agency

Manufacturers & order Suppliers of :

All kinds of Plastic & Alkathine Toys

8, Amartolla Street,

2nd Floor, Room No. 210

CALCUTTA-700001

Phone : 34-0973



CALCUTTA MOULDERS

C. I. Moulders & Labour Contractors

14/1/1A, JACKSON LANE,

CALCUTTA-700001



B. DUGAR & SONS

(JUTE BROKERS.)

12, INDIA EXCHANGE PALCE (3RD FLOOR)

CALCUTTA-700001

Office : 22-6154
22-0819

Resi : 55-0039
24-0571

अपने विरोधियों के गुणों की प्रशंसा करो ।

With
Compliments
of

Telex: JAI AMBA 021-3522

Phone : 34-5616

JANKI DASS RAM KRISHAN

48, B. R B B. ROAD,

CALCUTTA-1

Dealers of · TUBEWELL HAND PUMP

&



GUNNY JUTE GOODS



NAGARMAL SARAF

16, INDIA EXCHANGE PLACE,

CALCUTTA



Sudarshan Steel Rolling Mills

**601, MOTIRAM ROAD,
SHAHDARA,
DELHI-32**



यह संसार कायरो के लिये नहीं है । भागने का प्रयत्न मत करो ।
सफलता या असफलता की परवाह मत करो । “विवेकानन्द”

With best compliments from :

Cable : TENSIONBAR

Telex : ZENITH CA 2048

Phone . Office : { 22-2798
 { 22-6340
 Works : { 66-5190

RATAN RE - ROLLERS LIMITED

GOVT. RECOGNISED ELIGIBLE EXPORT HOUSE

Works :

6/1, KALI MAZUMDAR ROAD,
P. O GHUSURI, HOWRAH

286 / 287, G. T. ROAD,
P.O SALKIA, HOWRAH.

Regd Office :

4, B B D. BAG (EAST)
STEPHEN HOUSE. (3rd Floor)

CALCUTTA-700001-
(INDIA)

RE-ROLLERS, FABRICATORS, ENGINEERS & EXPORTERS

*With best
Compliments of*

Mimraj Jawaladutt Bagla

67/23, STRAND ROAD.

CALCUTTA-700006

Phone 22-6968 (3 Lines)

with
the
compliments
of

SHREE BAJRANG JUTE MILLS LIMITED

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001



मत भूलो—जो प्रेम आज मस्तक पर विजय का राजसुकुट
रखता है वही कल वलिदान भी माग सकता है। "ख० जि०"



JAGDISH PRASAD & SONS

(A Mafatal Group Dealer)
158, JAMUNALAL BAJAJ STREET,
CALCUTTA-7

Guddi : 33-2092

Shop : 33-7672

*With the
best Compliments
of*

ICE IS NICE
WHEN
IT IS HIND ICE
HIND ICE & COLD STORAGE (P) LTD.
23, CANAL WEST ROAD,
CALCUTTA-700004
STORE WITH US
FOR
LASTING FRESHNESS

Fact. : 35-1846

Off. : 34.3045

with
Best
Compliments
of

Phone : 23-5816
22-7228



SHANKARLAL SHEOKUMAR

5/1, CLIVE ROW,
CALCUTTA-1



यदि लोग हमारे बारे में कुछ उटपटागं बातें करते हैं, तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार गिरजाघर की मीनार अपने इदं-गिर्द चीलों के चीखने का ख्याल नहीं करती।

“इलियट”



Phone : 23-1080
23-5838

ORIENTAL COTTON CULTIVATION & MILLS LTD.

1-A, S. N. BANERJEE ROAD,
CALCUTTA-700013



Phone : 34-4525

ELITE TEA AGENCY

32, EZRA STREET,
Room No. 457 (4th Floor)

CALCUTTA-700001

सती नारी का महत्व

सती धर्म विश्व में सब धर्मों से बड़ा है। सती नारी से छेड़-छाड़ करने पर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर पुरातन-ब्रह्म पुरुषोत्तम, अखण्ड सच्चिदानन्दकन्द, निर्गुण निराकार, निर्विकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, निखिल कल्याणमय जगत की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् सर्वगुण स्रष्टृ भगवान् भी सती के शाप से बच नहीं सकते। इस समस्त जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान् को भी सती के शाप से पत्थर बनना पड़ता है। कभी आपने वृन्दा की कथा सुनी है। उस सती के शाप से भगवान् को भी शालिग्राम पत्थर बनना पड़ा। भगवान् से भी अधिक शक्ति सती में है। भारत की नारी में है। सती नारी भारत के अतिरिक्त कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती, यही भारत का महत्व है। विश्व के कोने में आपको सब कुछ मिल सकता है किन्तु सती नारी यदि मिल सकती है तो इस भारत-भू-खण्ड में ही मिल सकती है विश्व के और किसी देश में नहीं। सती की शक्ति क्या है ? यह सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा परब्रह्म परमात्मा भी सती नारी के शाप से अपने आपको नहीं बचा सकता है।

सत्यनारायण मुसद्दी

With best compliments from :

J. J. Electrical Corporation

&

J. J. Electrical Industries

22, Rabindra Sarani, Calcutta-700031

Phone 34-6138, 34-5108

Dealers in : Everything Electrical

Manufacturers of :

- I. S. I. Mark J. Brand Switch Gears Fuse units & Electrical Accessories

Delhi Office :
BHAKT-NIWAS
Bhagirath Palace
Electrical Market
Delhi-110006
Phone : 27 24 34

Show Room
MADAN KUNJ
1815, Bisomal Colony,
Bhagirath Palace
Delhi-110006
Phone : 27 24 34

Bombay Office :
JAY MAHAL ESTATE
20/48, Lohar Chawl
Bombay-400009



ASSAM BENGAL CARRIERS LIMITED

Regd Office : FANCY BAZAR

GAUHATI-781001

Branches . ALL OVER THE COUNTRY


श्री गणेशाय नमः ५१ श्री धोलीसती नमः ५१ श्री हनुमन्ते नमः

श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति

टेलीफोन
३३०६६१

४६, बडतल्ला स्ट्रीट,
कन्नकमा ५००००५

केशरीया गरम चाय



श्री धोली सतीजी शोभा-यात्रा उत्सव पर प्रचार समिति द्वारा सेवा कार्य



JALAN COMMERCIAL & INDUSTRIAL CORPORATION.

5, CLIVE ROW,

CALCUTTA-700001

Gram : "JALANROSE"

Office : 22-4112 22-0448
22-2937 22-7573

Resi. : 47-4824
48-1742

असम्भव शब्द मूर्खों के शब्दकोष में मिलता है।

*With Best
Compliments Of*

Phone : 23-6588

USHA PAINTS & LUBRICANTS

Manufacturers of .

HIGH GRADE LUBRICANTS, GREASES, METAL

PRE-TREATMENT CHEMICALS, DETERGENT

POWDERS & LIQUIDS

14, PRINCEP STREET,

CALCUTTA-700072



Phone : 66-3990

GUPTA IRON & STEEL INDUSTRIES

54/1/12, 'L' ROAD, BELGACHIA,

HOWRAH-711108

Mafatlal Group of Mills



MAFATLAL CENTRE
NARIMAN POINT,
BOMBAY-400021.



संसार में जितने पाप है उन सबसे बढ़कर पाप है मनुष्य की
दया के ऊपर अत्याचार करना। "शरत्चन्द्र"

With the
Compliments
of

MODI RUBBER LTD.

Regd. Office : MODI NAGAR



Manufacturers of :

MODI-CONTINENTAL TYRES




6, LITTLE RUSSELL STREET,

CALCUTTA-700071

Phone : 44-0035 & 44-0042




हमारी रुचि हमारे जीवन की कसौटी है और हमारे मनुष्यत्व
की पहचान है। "रिस्कन"



श्री श्री धोली सती दादीजी
के चरणों में

॥

O. P. SARAF & CO.



Branch Office :
22, BURTOLLA STREET,
(1st Floor)
CALCUTTA-700007

Offi : 33-1248
34-4042
Resi : 55-4211

Regd. Office :
23A, NETAJI SUBASH ROAD,
(10th Floor)
CALCUTTA-700001
Phone : 22-0326



विश्वाम करो :—तुम दोन-हीन नहीं हो, तुम अमृत हो, तुम
महान हो, तुम शुद्ध-बुद्ध हो, तुम्हारे अन्दर
मातेश्वरी की शक्ति भरी है, तुम चाहो तो
सब कुछ कर सकते हो।



Gram : 'UDOGSHALI'

Phone : Off. : 33-5153
Resi. : 33-5956

BENGAL BAG AGENCY

136, COTTON STREET,
CALCUTTA-700007.




Largest Stockists of :
JUTE GOODS, GUNNY BAGS, LAMINATED BAGS,
HESSIAN CLOTH, CANVAS & TWINE.



वेदना और वेङ्गजती के मुकाविले में दुनिया में ऐसी कोई चीज
नहीं है जो मनुष्य की सच्ची रूह को खींच कर बाहर ला सके।

“शरत्चन्द्र”



Phone : { Office : 32 68 97
Residence : 57 18 87

BRIJMOHAN MADANLALL


221 'GIRIRAJ'

SANT TUKARAM ROAD,

BOMBAY - 400009



संसार में केवल मित्रता ही एक ऐसी चीज है जिसकी उपयो-
गिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं। "सिसरो"



Piramal Goenka Charity Trust

9, CAMAC STREET,
CALCUTTA-17

Phone : 44-8167



प्रसिद्धि की अमर सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके कारण प्रसिद्धि लब्धित है।
‘हैज़लिट’

With
Compliments
of

DHOLAI TEA COMPANY



4, SYNAGOGUE STREET,
CALCUTTA-700001



Gram : TUSNIAL

Phone : 22-0545



भाग्य एक बाजार है, जहाँ कुछ देर ठहरने से अकसर भाव गिर
जाता है। "बेकन"

*With the
Compliments of*

*DRINK GARDEN FRESH TEA
OF*

DALGAON T. E.

TASATI T. E.

PHASKOWA T. E.

Head Office :

PHASKOWA TEA CO. LTD.




**1 & 2, OLD COURT HOUSE CORNER,
CALCUTTA-700001**



मौन नींद के समान है, वह विवेक को ताजा कर देता है।

“वेकन”



HANUMAN PRASAD SITARAM

52/6, STRAND ROAD,

CALCUTTA-7

PHONE : 33-8003
32-5073

General Merchants & Commission Agents

For Vegetable Oils



महान विचार जब क्रिया के सांचे में ढल जाते हैं तो महान
रचनाओं की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। "हैज़लिट"

With the
Compliments
of

Phone : 321431



KHANNA & CO.



50-A, BARODA STREET,
BOMBAY-400009

मैं ईश्वर से डरता हूँ, ईश्वर के वाद मुख्यता: उससे डरता हूँ
जो ईश्वर से नहीं डरता। "सादी"



TAUNUS ENGINEERING CO. (P) LTD.

41, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA

Phone : { 24-0802
 { 24-4874

●
मनुष्य का मरना मुझे उतनी चोट नहीं पहुँचाता जितनी की
मनुष्यत्व की मौत । "शरत्चन्द्र"

*With best
Compliments of*

Phone : 22-6884

SHASKAR TEA CO. P. LTD.

2, BRABOURNE ROAD,


CALCUTTA-700001

GARDENS :

TINGALIBAM TEA ESTATE

DAHENGAPAR TEA ESTATE

GABROOPURBAT TEA ESTATE



Gram : IRONPILLAR

Offi : 33-2360

Resl : 33-4318

KHEMKA IRON & STEEL CO.

IRON & STEEL MERCHANTS

19, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,

CALCUTTA-700007



BRIJMOHAN PURSHOTTAMDAS



306, KALBA DEVI ROAD,



BOMBAY - 2



जो शत्रु बनाने से डरता है, उसे कमी सच्चे मित्र नहीं मिलेंगे ।

“हेजलिट”

*With best
Compliments of*

ASSOCIATED SUPPLIERS



1/A, VANSITTART ROW,
CALCUTTA-700001



(Opp. Telephone Bhawan)

Timber Merchants & General Order Suppliers



Dial : Offi 23-8312
23 6665
Resi 34-8589

ईर्ष्यालु लोग औरो के लिये कष्टकर है लेकिन स्वयं अपने
लिये महान दुःख दायक ।
‘विलियम पैन’



With the
Best Compliments
of

Kumar Enterprises Pvt. Ltd.

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,
7th Floor,
CALCUTTA-700001.



Oldest Manufacturers of :

ORIGINAL EQUIPMENT FOR CARS & TRUCKS

Telex : (021) 2754

Telephone : 22-4616

शान्ति ठीक वहां से शुरू होती है, जहां महश्वाकांक्षा का
अन्त हो । "यंग"



WITH
BEST
COMPLIMENTS
OF

Phone : 55-9866

SAHA & BROTHERS

JUTE MERCHANT & COMMISSION AGENT.

5, SOVABAZAR LANE.

CALCUTTA-700005



*With
the
Compliments
of*


Phone : 33-3343 P.P.


Gulabchand Nabaratanmal

General Merchants & Commission Agents

8, JAMUNALAL BAZAZ STREET,

CALCUTTA-700007





Pone : 30644h

Jaswant Iron & Textile Works

MADHAV LAL COLONY,

AHEMDABAD-18

प्रेम की राह में तुम एक दूसरे के मददगार बनो, किन्तु एक ही
प्याले से प्यास बुझाने की कोशिश मत करो। "ब० जि०"



Bishwanath Kishanlal

(JHUNJHUNWALA TEXTILES)

CLOTH MERCHANTS & COMMISSON AGENTS



Gram : BISHWAKUNJ

Phone { Office : 312392
{ Resl. : 362619



(509, KAKAD MARKET)
306. KALBADEVI ROAD,
BOMBAY-400 002



जुगनू तभी तक चकमता है जब तक उड़ता रहता है। यही हाल
मन का है। जब हम रुक जाते हैं तो अंधेरे में पड़ जाते हैं।

“वैली”

श्री धोली सतीजी नमः

With the
Compliments of

Phone : 22-1772

RELIANCE ROADWAYS

7th Floor, Room No. 18
23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001



Administration Office :
13, TARACHAND DUTT STREET,
CALCUTTA-700073

Phone : 34-7969
32-6415

HOUSE OF ROAD TRANSPORT SERVICE.



स्त्री ! तूने अपने अथाह आंसुओं से संसार के हृदय को ऐसे घेर
रखा है जैसे समुद्र पृथ्वी को घेर हुए है। "द्वैगोर"



A

WELL

WISHER



Phone : 66-5269

GRAPHITE & MINERAL PRODUCTS


Manufacturers, Suppliers & Dealers in :

INDUSTRIAL MINERALS

Specialist in : Graphite Powder & Flakes.

3, STATION ROAD,

LILUAH. (HOWRAH)




Phone : 35-7555

PANKAJ

APPROVED RETAIL SHOWROOM OF
MAFATLAL GROUP OF MILLS
8/1, ACHARYA PRAFFULLA CHANDRA ROAD,
(Opposite Sealdah Station)
CALCUTTA-9

सबसे मूर्ख व्यक्ति भी एक कार्य सम्पन्न कर सकता है यदि वह
उसके मन का हो।

“विवेकानन्द”



फतेहपुर में श्री दादीजी के नव-निर्मित भवन का बाहरी दृश्य



श्री श्री धोली सती दादी प्रचार समिति द्वारा आयोजित
अखण्ड ज्योति की किरण
प्रत्येक प्राणी-मात्र के हृदय पर पड़े,
यही मेरी शुभकामना है।

सेवक :—हरीप्रसाद पौडार

With best compliments of :

**M. L. STEEL TRADERS
GARG STEEL TRADERS**

Dealers of : IRON & STEEL & ORDER SUPPLIERS

Office :

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,
7th Floor, Room No. 17
CALCUTTA-700001

Phone : 22-5844

Resi. : 67-3558, 67-5760

Branch :

26, MILL & GODOWN AREA,
BURMA MINES,

JAMSHEDPUR

Phone : 5769, 7463, 7137



SHYAM SUNDAR DALMIA



(SHARE BROKER)




**7, LYONS RANGE,
CALCUTTA-700001**



Resi. : 46-8770

Office : 22-9431

थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना—वही
बुद्धिमान बनने के उपाय है। “टैगोर”



(राजपूताना अनाथालय)

“गत ७१ साल से अनाथ एवं मासूम बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील उपरोक्त संस्था में तन-मन-धन से सहयोग देकर यशस्वी वनें ।

विनीत

हीरालाल सराफ

१, बलराम दे स्ट्रीट, कलकत्ता

दूरभाष-३३-५५२५



Phone : 44-5268

MOKAL BARI KANOI TEA ESTATE PVT. LTD.

13/2, BALLYGUNGE PARK ROAD,

CALCUTTA-19



FOR
DEPENDABLE SOLID FOUNDATION
AND
IDEAL CONCRETE CONSTRUCTION
BUY ONLY

DURGAPUR
CEMENT

FROM

ARUN DISTRIBUTORS (P) LTD.
55, EZRA STREET,
CALCUTTA-700001

Gram : "COALCEMEN"

Phon : 32-1012
32-4176

सहानुभूति वह सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ
लेते हैं और उसकी कद्र करते हैं। "जेम्स एलन"

With
Compliments
of

Phone : 34-0019

U. P. TIN TRADING CO.

13/A, MADAN MOHAN BURMAN STREET,

CALCUTTA-7



Phone : 33-3173

RAJ STEEL CORPORATION

171-A, Mahatma Gandhi Road,

CALCUTTA-700007

~~WATER~~
~~PROOF~~
~~COMPLIMENTS~~
~~OF~~



METAL & STEEL AGENCY

40, STRAND ROAD,

(3rd Floor)

CALCUTTA-700001



“सद्वा कष्ट यदि सद्वाइ से सहन किया जाय तो यह पत्थर
जैसे हृदय को भी पानी-पानी कर डालता है।” “गांधी”



INTERNATIONAL COMMERCE & INDUSTRIES

E-3, GILLANDER HOUSE,
CALCUTTA-700001

Resl. : 47-9728
47-5983

Office : 22-5903
22-6441



*With best
Compliments
of*

Manufacturers & Stockists of :

**Gas & Arc Welding Rods,
Accessories & Safety
Equipments.**



Phone : { Office : 22-2603
Resl. : 35-4161


BISHWA TRADING CORPORATION

Specialists in :

C. I. Electrodes, Stellite
Hand Gloves, Repairing of
Cutters, Regulators etc.



85, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001



With the
Compliments
of

Mahadeolall Radheshyam

General Merchants, Commission Agents

Importers & Exporters

Office :

110/1, AMHERST STREET,
CALCUTTA-700009
(INDIA)

Phone : 34-1859 & 34-9183

Cable : "TERNEPLATE"

Guddi :

50, PARVATI GHOSH LANE,
CALCUTTA-700007
(INDIA)

Phone : 34-5716

लोहे को गरम रहते उस पर चोट करो। आलस्य से काम नहीं
होने का। ईर्ष्या और अहंकार की समस्त भावना सदा के लिये
दूर कर दो।

“विवेकानन्द”

श्री श्री धोली सती दादीजी

के

चरण कमलों में

महादेवलाल सराफ

३४, विवेकानन्द रोड,

कलकत्ता-७

दूरभाष : ३४-४०२८

With the
Compliments of

MAHAVIR PRASAD
BINOD KUMAR

JEWELLERS & JOB WORKERS
31/B, BANSTOLLA LANE,
CALCUTTA-700 007

(India.)

Phone : 33-6224 P.P.



Gram : Gurjankat Phone : Office 73532
Resi. 75055

JAIPUR BIKANER TRADING CO.

Dealers in Timber, Plywood,

Sunmica, Glass Etc.


JAIPUR

With the
Compliments of

Gram : TEATRADER

Phone : 52-9045

SATYANARAYAN BHAWARLAL



2325, GALI HINGABEG,
TILAK BAZAR
DELHI-6

DEALERS IN TEA & COMMISSION AGENT



दान की सफेद चादर से हम अपने अछंछय पाप छिपाते है ।

“बीचर”

*With best
Compliments of*

TEA AGENCY & TRADING CENTRE

4, SYNAGOGUE STREET,
CALCUTTA-700001

*with the
best Compliments
of*

Telegram : "HARBANJUTE"

PHONE : { Office : 33-9605
33-8212
Resi. : 47-2997

HARNATHRAI BANARSILAL

IRON & STEEL DEALERS, JUTE MERCHANTS &
COMMISSION AGENTS.

155-B, RABINDRA SARANI,
CALCUTTA-7



Gram : 'CHAKRALAC'

Phone : 34-0964
34-0967
Resi : 44-3867

MINERAL CO.

Fleet Owners & Transport Contractors



Branch :

P. O. RAJGANGPUR-770 017
Dist. SUNDERGARH (Orissa)

Phone : 63



H. O. : 9, PARSEE CHURCH STREET,
CALCUTTA-700001



जब वच्चा जन्म लेता है तो यह सन्देश लेकर आता है कि
ईश्वर अभी मनुष्य से नाराज नहीं हुआ है।

“रविन्द्रनाथ टैगोर”

With Best
Compliments Of:

Gram : MANGALGOTI

Phone : { Office : 33-1270
33-1975
Resi : 55-3416

NOPCHAND SONIRAM & CO.

Timber Merchants & General Order Suppliers

69-B, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, (Nimtollah)
CALCUTTA-700006

With best compliments of :

Gram : WELDPALACE

Phone : Office : 22-4408
Resl. : 55-7563

JINDAL TRADERS

FROM A PIN TO A PLANT

IN ALL SORTS OF

WELDING ENGINEERING MATERIALS &
SAFETY APPLIANCES

89, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700001

With
Best
Compliments
of

Dial : 45-3775

Shringar - Kunj

(Artistic Sarees & Wedding Dress)

RAJASHREE-BUILDING,
6, HASTINGS PARK ROAD,

(Near Judge Court, Allpore)

FLAT No. 4-1

CALCUTTA-700027

ONLY FOR LADIES

जब दुष्ट लोग गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो
जाना चाहिये ; अन्यथा एक-एक करके उन सबकी बलि चढ़
जायेगी । "बर्क"

With best compliments of :

Gram : HEXNUT

Phone : 22-7861

THE NEW ERA TRADING CO.

14/2, OLD CHINA BAZAR STREET,

3rd Floor (Room No. 205/6)

CALCUTTA-700001

Authorised Dealers for :

M/s. The English Electric Co. of India Ltd.

(For their Switchgear Products)

Also Specialised in Jute Mills Parts



MODERN MINERS

1, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700001

Resi. : 35-6388

Office : 23-5582

with
the
compliments
of

Nagesh Industries & Commerce

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,

(3rd Floor)

CALCUTTA-700001

Resl. : 44-4837

Office : 22-9478
22-0236

वह दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी जो प्राण देने के लिये तैयार है ब्रह्माण्ड तक को हाथों पर उठा सकता है।

'रोमां रोला'

With best compliments from :

Gram : CHUNPATHAR

Phone : 22-0189

AMBICA MINERALS INDUSTRIES

Manufacturers & Dealers in :

Petroleum Coke Powder, Carbon Powder, Carbon Black,
Carbon Pillets, Carbon Electrode, Graphite Powder
& Flakes and Allied Minerals.

P-36, INDIA EXCHANGE PLACE,
2nd Floor, Room No. 42-A
CALCUTTA-700001.


With
Compliments
of

BAGARIA MORE CO. LTD.

LANDLORDS, EXPORTERS & IMPORTERS.

23A, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1

PHONE : 22-9700



**With Best
Compliments
From**



TIBCO ENTERPRISES

12-A, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700001



GOVT. & DEFENCE SUPPLIER



सारे समय अपने को रोगी सोचते रहना रोग मुक्ति का उपाय नहीं है ; उसके लिये दवा की आवश्यकता है । "विवेकानन्द"



VIJAY ENTERPRIZE

11-STEPHEN HOUSE,

4. B. B. D. BAG (EAST)

CALCUTTA-700001

Resl. : 55-1951

Office : 23-7155




Phone : 22-2144
22-9380

GESCO SUPPLIERS SYNDICATE

NON-FERROUS FOUNDERS

40, STRAND ROAD,

CALCUTTA-700001



With the
Best
Compliments
of

Pradyumna Steels Limited



Manufacturers of High Carbon Steel, Alloy Steel,
Special Steel Ingots and Castings.



Office : 112, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-700073

Works : National Highway No. 2,
Rishra (Hooghly),
West Beegal.

Telephone—34-0043/44/45

Cable—PRASTELIM

Telex—JUTCOAT-7138

मृत्यु के श्वेत पंख जब तुम्हारे जीवन-कणों का विखेर देंगे तब
श्री तुम्हारा साहचर्य नहीं टूटेगा । "ख० जि०"

With Best
Compliments Of

Phone : 33-0552

RAM STEEL CORPORATION

249, SANT TUKARAM ROAD,

CARNAC BUNDER

BOMBAY-400009



A

SHEBAYAT

With the
Compliments of



The Moraghat Tea Company, Limited

Owners : MORAGHAT TEA ESTATE AND
TELEPARA TEA ESTATE

*Manufacturers & Exporters of QUALITY
DOOARS ORTHODOX & CTC TEAS.*

4, FAIRLIE PLACE,

CALCUTTA-700001

Telephone :
22-9965/66

Gram :
"DARINTEAEX"

Telex :
PODDAR CA-3297

संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह है जो सबसे अधिक
अकेला खड़ा हुआ है। "इवसेन"



श्री श्री धोली सती दादीजी
के
चरण कमलों में



हनुमान बक्स मोहनलाल सराफ

(रतनगढ़ निवासी)

पो० आमलागोड़ा (AMLAGORA)

रेलवे स्टेशन—गढ़वेता (GARHBETA)

जिला : मिदनापुर

तिरस्कार दिखाने का सर्वोत्तम तरीका है मौन । “वरनार्ड शा”

हम आभारी हैं

- ❖ उन विज्ञापन दाताओं के जिन्होंने इस स्मारिका में प्रकाशनार्थ विज्ञापन दिये हैं।
- ❖ उन सहयोगियों के जिनके अथक परिश्रम एवम् सतत् प्रयास से यह स्मारिका प्रकाशित हो सकी।
- ❖ उन शुभेच्छुकों एवम् समस्त सदस्यों के जिनका स्नेह एवम् सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहा है।
- ❖ उन सज्जनों के जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपनी शुभकामनायें भेज कर हमें उत्साहित किया।
- ❖ उन हृद्य संपादकों के जिन्होंने अपने "दैनिक विश्वमित्र" एवम् "सन्मार्ग" पत्रों में समय-समय पर हमारे कार्यक्रमों की सूचना प्रकाशित कर हमें सहयोग दिया है।
- ❖ उन सहयोगी संस्थाओं के जिन्होंने हमारे आयोजनों में योगदान दिया है।
- ❖ उन आलोचक बन्धुओं के जिन्होंने समय-समय पर हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित कर हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है।
- ❖ बगड़िया प्रिंटिंग प्रेस के जिनके सहयोग से यह स्मारिका समय पर प्रकाशित हो सकी है।

विनीत :

स्मारिका प्रकाशनार्थ उप-समिति

सत्यनारायण सराफ, (संयोजक)

सजनकुमार सराफ (उप-संयोजक)

With Best
Compliments Of

Mahinder Singh Ragbir Singh

55/103, CANNING STREET,


CALCUTTA-1



PREMIER DISTRIBUTION HOUSE

FOR

ALL KINDS OF STATIONERY & COSMETICS



श्री श्री धोली सती दादीजी
के चरणों में

वासुदेव नरेन्द्रकुमार सराफ

२३ ए, राजेन्द्र मल्लिक स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

दूरभाष :- ३४-४०२३

क्षमा-ज्ञापन

हम विज्ञापन दाताओं पाठक बन्धुओं
से क्षमा-ज्ञापन करते हुए अनुरोध
करते हैं कि 'स्मारिका' में
कोई गलती व भूल रह
गई हो तो कृपया
उसे सुधार कर
पढ़ें ।



विनीत :

श्री धोली सतीजी मन्दिर कमेटी
“स्मारिका” प्रकाशनार्थ उप-समिति

श्री सत्यनारायण सराफ	संयोजक
श्री सजन कुमार सराफ	उप-संयोजक
श्री रघुनाथ प्रसाद सराफ	सदस्य
श्री देवी प्रसाद लोधा	”
श्री विश्वनाथ सराफ	”
श्री तोलाराम सराफ	”
श्री असनारायण सराफ	”



卐 श्री धोली सती दादी की जय 卐

With Best
Compliments Of

Mahinder Singh Ragbir Singh

55/103, CANNING STREET,


CALCUTTA-1



PREMIER DISTRIBUTION HOUSE

FOR

ALL KINDS OF STATIONERY & COSMETICS



श्री श्री धोली सती दादीजी

के चरणों में

वासुदेव नरेन्द्रकुमार सराफ

२३ ए. राजेन्द्र मल्लिक स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

दूरभाष :- २४-४०२३

Phones { Head Office : 51-4415
Sadar Bazar : 51-1295
Branch Office : 56-5432
Naraina
Residence : 56-2072
56-6820

With Best compliments from :-



M/s. SHAM DASS INDER RAJ

487, BARTAN MARKET,

SADAR BAZAR,

DELHI 110006

Dealers in: TIN PLATES, C. R. C. A, B. P. G. P & G. C., STAINLESS STEEL,
ALUMINIUM SHEETS AND INDUSTRIAL SCRAPS.
SPECIALITIES IN DEEP DRAWING QUALITY SHEETS.